



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

आधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 18]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 6, 1995 (वंशाख 16, 1917)

No. 18]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 6, 1995 (VAISAKHA 16, 1917)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate Compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART-I—SECTION 4]

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों
सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

गु० आ० म० नि०

नई दिल्ली, दिनांक 6 मई 1995

सं० 308, दिनांक 3 अप्रैल, 1995—राष्ट्रपति, सिविलियन स्टाफ अधिकारी श्रीमती अर्चना राय को दिनांक 7 नवम्बर, 1994 से 31 मार्च, 1995 तक या नियमित पदधारियों के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के प्रवरण कोटि अधिकारी (वरिष्ठ सिविलियन स्टाफ अधिकारी) के रूप में नियुक्त करते हैं।

उपर्युक्त नियुक्ति पूर्णतः काम चलाऊ व्यवस्था के लिए की गई है तथा प्रशासनिक कारणों अथवा नियमित पदधारियों के उपलब्ध होने की दशा में बिना सूचना समाप्त की जा सकती है।

सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी श्री चमन लाल को दिनांक 17 जनवरी, 1995 से 30 अप्रैल, 1995 तक या नियमित पदधारियों के उपलब्ध होने तक या इनके सेवा निवृत्त होने तक, जो भी पहले हो, सशस्त्र सेना मुख्यालय

सिविल सेवा के सिविलियन स्टाफ अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाता है।

उपर्युक्त नियुक्ति पूर्णतः काम चलाऊ व्यवस्था के लिए की गई है तथा प्रशासनिक कारणों अथवा नियमित पदधारियों के उपलब्ध होने की दशा में बिना सूचना समाप्त की जा सकती है।

निम्नलिखित सहायकों (वर्ग 'ब'-अराजकित) को उनके नामों के आगे दर्शाई गई नियतों से आगे आदेशों तक सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में स्थानापन्न सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारियों (वर्ग 'ब'-राजकित) के रूप में नियुक्त किया जाता है :—

नाम तथा नियुक्ति का तिथि

सर्व श्री

चन्दर प्रकाश—5 जनवरी, 1995 (पूर्वाह्न)।

आर० एन० पाल—5 जनवरी, 1995 (पूर्वाह्न)।

मधुकर दिनकरराव निमहर—5 जनवरी, 1995 (पूर्वाह्न)।

राम स्वरूप—1 फरवरी, 1995 (पूर्वाह्न)।

बलबीर सिंह अरोरा—1 फरवरी, 1995 (पूर्वाह्न)।

उपर्युक्त पदोन्नतियाँ न्यायालयों में लक्षित वरिष्ठता एवं पदोन्नति से संबंधित मामलों में निर्णय के परिपालन में यथावश्यक आशोधन के अध्वर्धीन हैं।

रेनु के० राजू

उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

(सेना विभाग)

सं० 309, दिनांक 7 अप्रैल, 1995—राष्ट्रपति, सहर्ष मिम्ललिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

2/लिफ्टनेंट से लेफ्टनेंट

अनूपम चेत्री (आई० सी०-40939), इन्फैंटरी—
24 दिसम्बर, 1984।

सुखविन्द्र सिंह (आई० सी०-44411), आर्टिलरी—
20 दिसम्बर, 1988।

जगतार सिंह कांग (आई० सी०-44730), इन्फैंटरी—
13 जून, 1989।

यश सक्सेना (आई० सी०-47105), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1989।

अजित कुमार पूनिया (आई० सी०-47360), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1989।

अंशुल भार्गवा (आई० सी०-47402), ए० सी०—
19 दिसम्बर, 1989।

पी० मधुसूदनन (आई० सी०-48220), ए० ओ०
सी०—17 दिसम्बर, 1990।

जितेन्द्र पंडित (आई० सी०-50396), इंजिनियर—
8 जून, 1993।

अमित भाहना (आई० सी०-50474), इंजिनियर—
8 जून, 1993।

संगीत बुद्धवार (आई० सी०-50641), सिगनल—
8 जून, 1993।

सत्या नारायण (आई० सी०-50754), इन्फैंटरी—
14 दिसम्बर, 1993।

मुकेश कुमार (आई० सी०-51115), इंजिनियर—
13 जून, 1994।

एस० प्रेमजीत सिंह (आई० सी०-51117), इंजिनियर—
13 जून, 1994।

अमयपाल सिंह हॉली (आई० सी०-51126), इंजिनियर—
13 जून, 1994।

राजेश मेहता (आई० सी०-51138), ई० एम० ई०—
13 जून, 1994।

रणवीर सिंह (आई० सी०-51148), आर्टिलरी—
13 जून, 1994।

बदरी प्रसाद (आई० सी०-51172), इन्फैंटरी—
13 जून, 1994।

राजीव चौहान (आई० सी०-51190), आर्टिलरी—
13 जून, 1994।

जी० मनोज (आई० सी०-51191), ई० एम० ई०—
13 जून, 1994।

नरेन्द्रा प्रताप सिंह (आई० सी०-51195), सिगनल—
13 जून, 1994।

अशोक कुमार (आई० सी०-51219), आर्टिलरी—
13 जून, 1994।

रजनीश गम्भीर (आई० सी०-51222), आर्टिलरी—
13 जून, 1994।

राजेश जोय विवियन ओहोल (आई० सी०-51230),
आर्टिलरी—13 जून, 1994।

समीर श्रीवास्तवा (आई० सी०-51233), इन्फैंटरी—
13 जून, 1994।

समर सिंह चन्वेन (आई० सी०-51235) इन्फैंटरी—
13 जून, 1994।

वम बहादुर गुरुंग (आई० सी०-51238), इन्फैंटरी—
13 जून, 1994।

सलिल सेठ (आई० सी०-51240), मेक०—13 जून,
1994।

संतोष कुमार मिश्रा (आई० सी०-51251), ए० ओ०
सी०—13 जून, 1994।

आशुतोष कुमार सिंह (आई० सी०-51252), इन्फैंटरी—
13 जून, 1994।

घनन्जय मेहता (आई० सी०-51260), सिगनल—
13 जून, 1994।

परमिन्द्र सिंह (आई० सी०-51269), आर्टिलरी—
13 जून, 1994।

महेषा धर्मवीर (आई० सी०-51282), इन्फैंटरी—
13 जून, 1994।

ओम प्रकाश जांगीठ (आई० सी०-51285), आर्टिलरी—
13 जून, 1994।

सलेश यूनीपाल (आई० सी०-51291), आर्टिलरी—
13 जून, 1994।

मेहन राजेश एराकथ (आई० सी०-51307), सिगनल—
13 जून, 1994।

संजय भारद्वाज (आई० सी०-51309), आर्टिलरी—
13 जून, 1994।

नबतेज सिंह कलगी (आई० सी०-51314), आर्टिलरी—
13 जून, 1994।

गौतम दास (आई० सी०-51332), आर्टिलरी—13 जून
1994।

बिक्रान्त लखनपाल (आई० सी०-51336), सिगनल—
13 जून, 1994।

संजय चौधरी (आई० सी०-51348), ई० एम० ई०—
13 जून, 1994।

गौरव माथुर (आई० सी०-51368), आर्टिलरी—
13 जून, 1994।

सस्तीगिरी जितेन्द्रा पान्धुरंग (आई० सी०-51370),
आर्टिलरी—13 जून, 1994।

पारस मेहरा (आई० सी०-51372), इन्फैंटरी—
13 जून, 1994।

मिमीन्ध ग्यामसुन्दर तोसर (आई० सी०-51374),
सिगनल—13 जून, 1994।

सुभाजीत सिरकार (आई० सी०-51378), इंजिनियर—
13 जून, 1994।

अमरेन्द्र जीत सिंह (आई० सी०-51381), आर्टिलरी—
13 जून, 1994।

अरुण मलिक (आई० सी०-51467), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994।

गोपेन्द्रा सिंह राठौर (आई० सी०-51468), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994।

बैनी मेथु (आई० सी०-51471), ए० ओ० सी०—
19 दिसम्बर, 1994।

जगवीर सिंह यादव (आई० सी०-51472), इंजिनियर—
19 दिसम्बर, 1994।

राजीव कृष्णन (आई० सी०-51473), सिगनल—
19 दिसम्बर, 1994।

सुनिल शोरन (आई० सी०-51474), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994।

अमित नलवार (आई० सी०-51475), ए० सी०—
19 दिसम्बर, 1994।

प्रदीप सिंह चौकर (आई० सी०-51476), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994।

जगदीप चौहान (आई० सी०-51480), आर्टिलरी—
19 दिसम्बर, 1994।

अश्विन्द्रपाल सिंह कांग (आई० सी०-51482),
सिगनल—19 दिसम्बर, 1994।

टी० विनोद रेड्डी (आई० सी०-51483), मेह०—
19 दिसम्बर, 1994।

अशिश वैनी (आई० सी०-51484), ए० एस० सी०—
19 दिसम्बर, 1994।

संजय शर्मा (आई० सी०-51485), आर्टिलरी—
19 दिसम्बर, 1994।

यशवीर सिंह (आई० सी०-51486), ए० एस० सी०—
19 दिसम्बर, 1994।

उत्तम विभित (आई० सी०-51487), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994।

जय प्रकाश सिंह (आई० सी०-51488), आर्टिलरी—
19 दिसम्बर, 1994।

सुदेश कुमार वर्मा (आई० सी०-51489), आर्टिलरी—
19 दिसम्बर, 1994।

लखिन्द्र सिंह (आई० सी०-51491), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994।

तेजिन्द्र सिंह हारा (आई० सी०-51492), ए० सी०—
19 दिसम्बर, 1994।

बंगुक्त रघु (आई० सी०-51493), सिगनल—
19 दिसम्बर, 1994।

दिनेश पठानिया (आई० सी०-51494), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994।

अमिताभ राय (आई० सी०-51498), आर्टिलरी—
19 दिसम्बर, 1994।

अमित शर्मा (आई० सी०-51499), आर्टिलरी—
19 दिसम्बर, 1994।

टीका यूबराज सिंह बेदी (आई० सी०-51501),
आर्टिलरी—19 दिसम्बर, 1994।

कबीर कश्यप (आई० सी०-51503), इंजिनियर—
19 दिसम्बर, 1994।

विरेन्द्र (आई० सी०-51504मे, ए० एम० सी०-
19 दिसम्बर, 1994 ।

अशोक श्रोवर (आई० सी०-51505), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

राजवीर सिंह (आई० सी०-51507), आर्टिलरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

प्रेम प्रीत सिंह (आई० सी०-51508), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

सोम राज (आई० सी०-51510), ए० ओ० सी०—
19 दिसम्बर, 1994 ।

अभिमन्यु सिंह राठौर (आई० सी०-51511), ए० एम०
सी०—19 दिसम्बर, 1994 ।

समीर सांभुल राजामेनी (आई० सी०-51513),
सिगनल—19 दिसम्बर, 1994 ।

प्रवीण कर्वाधियाल (आई० सी०-51514), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

सतिश कुमार शर्मा (आई० सी०-51515), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

गुरप्रीत सिंह बाजवा (आई० सी०-51516); आर्टिलरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

जसवीर सिंह वर्मा (आई० सी०-51517), सिगनल—
19 दिसम्बर, 1994 ।

चन्द्रा शेखर अग्रवाल (आई० सी०-51518),
इन्फैंटरी—19 दिसम्बर, 1994 ।

हरदीप सिंह चटवाल (आई० सी०-51519), आर्टी-
लरी—19 दिसम्बर, 1994 ।

ग्रामोपाध्याय ऋषीकेश बालचन्द्रा (आई० सी०-
51520), इन्फैंटरी—19 दिसम्बर, 1994 ।

अनिल कुमार श्रीवास्तवा (आई० सी०-51521),
इन्फैंटरी—19 दिसम्बर, 1994 ।

अरुण कुन्दू (आई० सी०-51522), ए० एम० सी०—
19 दिसम्बर, 1994 ।

मनोज तन्वार (आई० सी०-51523), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

आणुतोष सिंह (आई० सी०-51525), ए० सी०—
19 दिसम्बर, 1994 ।

अभिजीत शशीकान्त वालिवे (आई० सी०-51526),
आर्टिलरी—19 दिसम्बर, 1994 ।

नरेश आर्या (आई० सी०-51527), आर्टिलरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

शैलेश चन्द्रा चतुर्वेदी (आई० सी०-51528); ए० ओ० सी०
19 दिसम्बर, 1994 ।

के० एम० अब्दुल खादरे (आई० सी०-51529),
आर्टिलरी—19 दिसम्बर, 1994 ।

सुनील मोहनवी (आई० सी०-51530), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

रामचन्द्र सुरेश सोबानी (आई० सी०-51531),
सिगनल—19 दिसम्बर, 1994 ।

जितेन्द्र कुमार (आई० सी०-51532), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

राम सिंह थापा (आई० सी०-51533), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

एम० गुलफाम साकर्था (आई० सी०-51534), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

विरेन्द्र सिंह सन्गवान (आई० सी०-51535), ए०
ओ० सी०—19 दिसम्बर, 1994 ।

सुरेश कुमार शम्भू (आई० सी०-51536), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

निखन हरनल (आई० सी०-51537), आर्टिलरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

जगविन्द्र सिंह (आई० सी०-51539), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

शिव कुमार गुप्ता (आई० सी०-51542), सिगनल—
19 दिसम्बर, 1994 ।

राजू बत्रा (आई० सी०-51543), इंजिनियर—
19 दिसम्बर, 1994 ।

अभिजीत सरकार (आई० सी०-51544), ई० एम०
ई०—19 दिसम्बर, 1994 ।

राजूल राठी (आई० सी०-51545), ए० एम० सी०—
19 दिसम्बर, 1994 ।

पी० कन्डा स्वामी (आई० सी०-51546), आर्टिलरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

अमिताभ मिश्रा (आई० सी०-51547), इंजिनियर—
19 दिसम्बर, 1994 ।

नारायण सिंह (आई० सी०-51548), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

सदीप जसवाल (आई० सी०-51549), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

त्रिजेन्द्रा सिंह काडियान (आई० सी०-51550), ए० एम०
सी०—19 दिसम्बर, 1994 ।

प्राथी एन० प्रशान्त (आई० सी०-51552) मैक०—
19 दिसम्बर, 1994 ।

दीपेन्द्र सिंह चीमा (आई० सी०-51553), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

अजय गोगना (आई० सी०-51554), आर्टिलरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

संजीव कुमार खारा (आई० सी०-51555), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

राजेश सिंह ठाकुर (आई० सी०-51556), आर्टिलरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

अश्वनी कुमार सिंह (आई० सी०-51557), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

कमलेश कुमार अप्पवाल (आई० सी०-51558), ए०
एस० सी०—19 दिसम्बर, 1994 ।

प्रकाश सिंह दासोनी (आई० सी०-51559), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

लोहे ओम प्रकाश (आई० सी०-51561), ए० सी०—
19 दिसम्बर, 1994 ।

राजबीर सिंह (आई० सी०-51562), ए० ओ० सी०—
19 दिसम्बर, 1994 ।

सकेत कुमार सूरी (आई० सी०-51563), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

कूलेश्वर सिंह ठठवाल (आई० सी०-51564), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

दीपेन्द्रा सिंह चामवाल (आई० सी०-51566), ए० ओ०
सी०—19 दिसम्बर, 1994 ।

फ्रांसिस थोमस (आई० सी०-51567), ए० एस० सी०—
19 दिसम्बर, 1994 ।

स्वरूप सिंह (आई० सी०-51568), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

सुधिर कुमार नायक (आई० सी०-51569), सिग्नल—
19 दिसम्बर, 1994 ।

अमित मिश्रा (आई० सी०-51570), आर्टिलरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

जुरेन्द्रा सिंह रावत (आई० सी०-51571), इंजीनियर—
19 दिसम्बर, 1994 ।

नितिन कपूर (आई० सी०-51572), सिग्नल—
19 दिसम्बर, 1994 ।

जोहन गौतम गोपालन (आई० सी०-51573), ए० सी०—
19 दिसम्बर, 1994 ।

दिर्गबंजय सिंह बसेरा (आई० सी०-51574), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

जगदेव सिंह (आई० सी०-51575), ए० एस० सी०—
19 दिसम्बर, 1994 ।

रोहित सोन्ध (आई० सी०-51576), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

वादल चन्द्रा राय (आई० सी०-51577), ए० ओ०
सी०—19 दिसम्बर, 1994 ।

सनातन सिंह (आई० सी०-51578), आर्टिलरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

हरमन सिंह (आई० सी०-51579), आर्टिलरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

चन्द्र बहादुर पूत (आई० सी०-51580), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

राजेन्द्रा सिंह (आई० सी०-51581), आर्टिलरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

रजनीश कुमार बाली (आई० सी०-51582), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

जगदीश चौहान (आई० सी०-51583), इंजीनियर—
19 दिसम्बर, 1994 ।

विभोर मधवाल (आई० सी०-51584), ए० एस०
सी०—19 दिसम्बर, 1994 ।

वपिन चोपड़ा (आई० सी०-51585), इंजीनियर—
19 दिसम्बर, 1994 ।

अशिश आहूजा (आई० सी०-51586), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

एस० मुरुगनाथन (आई० सी०-51588), आर्टिलरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

भरत मेथानी (आई० सी०-51589), आर्टिलरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

गौरव सिधल (आई० सी०-51591), ई० एम० ई०—
19 दिसम्बर, 1994 ।

बलवान सिंह (आई० सी०-51593), ए० एस० सी०—
19 दिसम्बर, 1994 ।

परमिन्द्र पाल सिंह सन्धु (आई० सी०-51594)
ए० ओ० सी०—19 दिसम्बर 1994 ।

योगेश मोहताब (आई० सी०-51595) ए० सी०—
19 दिसम्बर 1994 ।

- हरतेज पाल सिंह (आई० सी०-51598) ए० सी०—
19 दिसम्बर 1994 ।
- रविन्द्र सिंह बाली (आई० सी०-51599) इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर 1994 ।
- उदय सिंह उदावत (आई० सी०-51600) ए० सी०—
19 दिसम्बर 1994 ।
- उत्तम हुकू (आई० सी०-51601) आर्टिलरी—
19 दिसम्बर 1994 ।
- मनीष कुमार (आई० सी०-51602) इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर 1994 ।
- संजीव कुमार (आई० सी०-51604), ए० एस० सी०—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- मनीष शक्सेना (आई० सी०-51605), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- विनोद कुमार रौतेला (आई० सी०-51606), आर्टिलरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- सुदीप सिंह (आई० सी०-51607), ए० ओ० सी०—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- वेवब्रत कुन्दालिया (आई० सी०-51608), ई० एम० ई०—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- अनूप सिंह पवार (आई० सी०-51609), इंजिनियर—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- जगदीप कपूर (आई० सी०-51610), इंजिनियर
19 दिसम्बर 1994 ।
- अनूप सिंह (आई० सी०-51611) इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर 1994 ।
- नगेन्द्रा पिलई (आई० सी०-51612), सिगनल—
19 दिसम्बर 1994 ।
- सालियन राजेश हरिणचन्द्र (आई० सी०-51613)
इंजिनियर—19 दिसम्बर 1994 ।
- कुलवीप सिंह (आई० सी०-51614), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर 1994 ।
- प्रमवीर सिंह (आई० सी०-51615), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर 1994 ।
- दातार संतोष सुरेश (आई० सी०-51616), आर्टिलरी—
19 दिसम्बर 1994 ।
- पंकज देवगन (आई० सी०-51619), ए० एस० सी०—
19 दिसम्बर 1994 ।
- गौरव साही (आई० सी०-51620), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर 1994 ।
- गोगरा अजय सिंह पंजाब सिंह (आई० सी०-51621),
ई० एम० ई०—19 दिसम्बर 1994 ।
- बी० वी० एस० शिवा राव (आई० सी०-51622), ए०
एस० सी०—19 दिसम्बर 1994 ।
- ईफान मेहदी ग्रावदी (आई० सी०-51623) आर्टिलरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- रोहित खारे (आई० सी०-51624), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर 1994 ।
- संजय कौशिक (आई० सी०-51625), ए० एस० सी०
—19 दिसम्बर 1994 ।
- अरिन्दम मजुमदार (आई० सी०-51626), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर 1994 ।
- तरुण कुमार (आई० सी०-51628), आर्टिलरी—
19 दिसम्बर 1994 ।
- सी० एम० बोपाना (आई० सी०-51630), मेक०—
19 दिसम्बर 1994 ।
- दीपक कपूर (आई० सी०-51632), इन्फैंटरी—19
दिसम्बर 1994 ।
- सुनील कुमार नयाहम (आई० सी०-51634), इन्फैंटरी
—19 दिसम्बर 1994 ।
- सिरीश सिंह (आई० सी०-51636), ए० एस० सी०—
19 दिसम्बर 1994 ।
- अनुज कटारिया (आई० सी०-51637), आर्टिलरी—
19 दिसम्बर 1994 ।
- रंजन मनोषा (आई० सी०-51638), आर्टिलरी—
19 दिसम्बर 1994 ।
- जोर्ज अगस्टन (आई० सी०-51639), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर 1994 ।
- विग्विजय सिंह कटल (आई० सी०-51640), ए० एस०
सी०—19 दिसम्बर 1994 ।
- राजागोपालन के० (आई० सी०-51641), सिगनल—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- नवरत्न सिंह (आई० सी०-51642), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- डी० सुजा रस्तल (आई० सी०-51643), मेक०—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- अरूण कुमार (आई० सी०-51644), ई० एम० ई०—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- राहुल मिश्रा (आई० सी०-51647), ए० सी०—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- शिखर कुमार (आई० सी०-51648), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- तमल सेन गुप्ता (आई० सी०-51649), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

गिरीश शाह (आई० सी०-51651), आर्टीलरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

रविन्द्रा नाथ साईराम बालाजी (आई० सी०-51653),
इंजिनियर—19 दिसम्बर, 1994 ।

राकेश बर्थवाल (आई० सी०-51654), ए० सी०—
19 दिसम्बर, 1994 ।

नीरज सूब (आई० सी०-51655), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

श्रीकान्त नारायण (आई० सी०-51656), आर्टीलरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

गौरव गुप्ता (आई० सी०-51657), सिगनल—
19 दिसम्बर, 1994 ।

बी० अजीत (आई० सी०-51658), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

सुनील खत्री (आई० सी०-51659), ए० एस० सी०—
19 दिसम्बर, 1994 ।

शीतलीश मनीश सतिश चन्द्रा (आई० सी०-51661),
इन्फैंटरी—19 दिसम्बर, 1994 ।

ऋषी राज यादव (आई० सी०-51662), ए० ओ०
सी०—19 दिसम्बर, 1994 ।

इबिन जीत सिंह महल (आई० सी०-51664),
इंजिनियर—19 दिसम्बर, 1994 ।

बृजेश सिंह (आई० सी०-51665), इन्फैंटरी —
19 दिसम्बर, 1994 ।

रजनीश नाथावत (आई० सी०-51666), मेक०—
19 दिसम्बर, 1994 ।

देवन जी (आई० सी०-51667), आर्टीलरी—19
दिसम्बर, 1994 ।

पदम सिंह जंगू (आई० सी०-51668), ए० ओ० सी०
—19 दिसम्बर, 1994 ।

राजेश गरी (आई० सी०-51669), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

मंवीप राठौर (आई० सी०-51670), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

वेवेन्द्र सिंह रावत (आई० सी०-51671), आर्टीलरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

पंकज गुप्ता (आई० सी०-51672), आर्टीलरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

गजेन्द्रा सिंह यादव (आई० सी०-51673), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

अबिन्य सिंह ठाकुर (आई० सी०-51674), ए० ओ०
सी०—19 दिसम्बर, 1994 ।

के० बी० वेनुगोपाल (आई० सी०-51675), इन्फैंटरी
—19 दिसम्बर, 1994 ।

अनुज कुमार (आई० सी०-51676), ए० सी०—
19 दिसम्बर, 1994 ।

जगन्त सिंह शहरावत (आई० सी०-51678),
इन्फैंटरी—19 दिसम्बर, 1994 ।

राजीव मल्होत्रा (आई० सी०-51680), इंजीनियर—
19 दिसम्बर, 1994 ।

राजीव कुमार सिंह (आई० सी०-51681), ए० एस०
सी०—19 दिसम्बर, 1994 ।

विनय राव चौहान (आई० सी०-51682), इन्फैंटरी
—19 दिसम्बर, 1994 ।

जयदीप सिंह सोही (आई० सी०-51685), आर्टीलरी
—19 दिसम्बर, 1994 ।

अशिश गम्भीर (आई० सी०-51687), इंजिनियर्स—
19 दिसम्बर, 1994 ।

केतन बहादुर थापा (आई० सी०-51688), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

टी० बी० स्वामी (आई० सी०-51689), इन्फैंटरी
—19 दिसम्बर, 1994 ।

संजीव पंथ (आई० सी०-51690), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

त्रिष्णु कुमार भारद्वाज (आई० सी०-51692), ए० ओ०
सी०—19 दिसम्बर, 1994 ।

राजीव कुमार (आई० सी०-51696), आर्टीलरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

संजीव प्रकाश दास (आई० सी०-51697), ए० ओ०
सी०—19 दिसम्बर, 1994 ।

पीयूष खान्दुरी (आई० सी०-51699), ए० एस०
सी०—19 दिसम्बर, 1994 ।

बुद्धी भूषेन्द्रा घनश्याम (आई० सी०-51700), ई०
एस० ई०—19 दिसम्बर, 1994 ।

जोगेन्द्रा सिंह (आई० सी०-51701), आर्टीलरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

आनंद लाल (आई० सी०-51702), आर्टीलरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

नरेश शर्मा (आई० सी०-51703), ए० ओ० सी०—
19 दिसम्बर, 1994 ।

सतिन्द्र पाल सिंह राठौर (आई० सी०-51704), ए०
सी०—19 दिसम्बर, 1994 ।

असजित सिंह सिद्ध (आई० सी०-51705), आर्टीलरी--
19 दिसम्बर, 1994 ।

विनोद एस० (आई० सी०-51706), इन्फैंटरी--
19 दिसम्बर, 1994 ।

कुलकर्णी विक्रान्त नरसिंहा (आई० सी०-51707),
इन्फैंटरी --19 दिसम्बर, 1994 ।

देवेन्द्र सिंह शेखावत (आई० सी०-51708), आर्टीलरी
--19 दिसम्बर, 1994 ।

मनजित सिंह कालरा (आई० सी०-51709), इन्फैंटरी
--19 दिसम्बर, 1994 ।

नवर्तत गुमस्ता (आई० सी०-51710), इन्फैंटरी--
19 दिसम्बर, 1994 ।

सुगातो सेन (आई० सी०-51711), इन्फैंटरी--
19 दिसम्बर, 1994 ।

ए० राजा पिलई (आई० सी०-51712), इन्फैंटरी--
19 दिसम्बर, 1994 ।

मुकुल सक्सेना (आई० सी०-51713), इन्फैंटरी--
19 दिसम्बर, 1994 ।

सुरेन्द्र कुमार (आई० सी०-51714), इन्फैंटरी--
19 दिसम्बर, 1994 ।

खोबरागाडे विवेक गणपतराव (आई० सी०-51716), ए०
सी०--19 दिसम्बर, 1994 ।

विविजय सिंह पूनिया (आई० सी०-51717), इन्फैंटरी--
19 दिसम्बर, 1994 ।

अनिल जयधालिया (आई० सी०-51718), आर्टीलरी--
19 दिसम्बर, 1994 ।

राकेश मिश्रा (आई० सी०-51719), इंजिनियर--
19 दिसम्बर, 1994 ।

शैलेन्द्रा कुमार सिंह (आई० सी०-51720), ए० ओ०
सी०--19 दिसम्बर, 1994 ।

एस० कन्डास्वामी (आई० सी०-51721), इन्फैंटरी--
19 दिसम्बर, 1994 ।

संजय खन्डारी (आई० सी०-51722), ए० एस०
सी०--19 दिसम्बर, 1994 ।

प्रमोद लाल (आई० सी०-51723), आर्टीलरी--
19 दिसम्बर, 1994 ।

प्रमजित सिंह चाहल (आई० सी०-51724), आर्टीलरी--
19 दिसम्बर, 1994 ।

विभूक्ति त्रिपाठी (आई० सी०-51726), ए० एस०
सी०--19 दिसम्बर, 1994 ।

योगेन्द्रा सिंह (आई० सी०-51727), इन्फैंटरी--
19 दिसम्बर, 1994 ।

अतुल भिन्डरा (आई० सी०-51728), आर्टीलरी--
19 दिसम्बर, 1994 ।

अमित कुमार चन्दा (आई० सी०-51729), इंजिनियर
--19 दिसम्बर, 1994 ।

अतुल्या सिंह गौतम (आई० सी०-51730), इन्फैंटरी
--19 दिसम्बर, 1994 ।

शरद श्रीवास्तवा (आई० सी०-51731), सिगनल--
19 दिसम्बर, 1994 ।

सुमित बक्सी (आई० सी०-51732), इन्फैंटरी--
19 दिसम्बर, 1994 ।

समिर रमेश्वर किशोर (आई० सी०-51733), इन्फैंटरी
--19 दिसम्बर, 1994 ।

दामले मिलिन्द महेश (आई० सी०-51734), सिगनल
--19 दिसम्बर, 1994 ।

कुर्षी राजा शेखर (आई० सी०-51735), आर्टीलरी
--19 दिसम्बर, 1994 ।

विक्रम जेतली (आई० सी०-51736), आर्टीलरी--
19 दिसम्बर, 1994 ।

देवाशिश मेथिया (आई० सी०-51737), इंजिनियर--
19 दिसम्बर, 1994 ।

जे० वर्टीबेलवान (आई० सी०-51738), इन्फैंटरी--
19 दिसम्बर, 1994 ।

अनुज घानन (आई० सी०-51740), आर्टीलरी--
19 दिसम्बर, 1994 ।

अनिन्दया श्रीवी (आई० सी०-51741), सिगनल--
19 दिसम्बर, 1994 ।

श्रुषी केश गुप्ता (आई० सी०-51742), ए० एस०
सी०--19 दिसम्बर, 1994 ।

थोरट अजय उदय (आई० सी०-51743), मेक०--
19 दिसम्बर, 1994 ।

हरदीप सिंह (आई० सी०-51744), ए० एस० सी०--
19 दिसम्बर, 1994 ।

अजित सिंह यादव (आई० सी०-51745), आर्टीलरी--
19 दिसम्बर, 1994 ।

अपर सुन्दरराज मनो (आई० सी०-51746),
सिगनल--19 दिसम्बर, 1994 ।

अमित कुमार (आई० सी०-51747), ए० ओ० सी०
--19 दिसम्बर, 1994 ।

- शरद गान्ध (आई० सी०-51748), ई० एम० ई०—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- अभिनव भारती (आई० सी०-51749), इंजिनियर—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- गुरपाल सिंह (आई० सी०-51750), ए० सी०—19 दिस-
म्बर, 1994 ।
- संजीव सिंह (आई० सी०-51751), इन्फैंटरी—19 दिसम्बर,
1994 ।
- राजेन्द्रा सियाल (आई० सी०-51752), ई० एम० ई०
—19 दिसम्बर, 1994 ।
- रविन्द्र सिंह मेठी (आई० सी०-51753), आर्टीलरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- पवित्रन आर० (आई० सी०-51754), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- राजन अग्रवाल (आई० सी०-51755), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- विष्वा बन्धु (आई० सी०-51757), ए० एम० सी०—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- संदीप नेगी (आई० सी०-51758), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- कुलकर्णी प्रकृता लेखनाथ (आई० सी०-51759), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- मनोज कुमार रावत (आई० सी०-51760), इंजिनियर—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- राममनीक कालरा (आई० सी०-51761), सिगनल—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- गिरीश कुमार मेहता (आई० सी०-51762) —
19 दिसम्बर, 1994 ।
- प्रवीण कुमार (आई० सी०-51763), इन्फैंटरी—19
दिसम्बर, 1994 ।
- दिग्विजय सिंह मुमल (आई० सी०-51764), इन्फैंटरी
—19 दिसम्बर, 1994 ।
- जोहन जेम्स अब्दुल (आई० सी०-51766), आर्टीलरी
—19 दिसम्बर, 1994 ।
- बलविन्द्र सिंह मदीक (आई० सी०-51767), आर्टीलरी
—19 दिसम्बर, 1994 ।
- राजकुमार मलिक (आई० सी०-51768), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- तुशर अश्वस्तवा (आई० सी०-51769), आर्टीलरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- अनुप लूदरा (आई० सी०-51770), ए० सी०—
—19 दिसम्बर, 1994 ।
- कर्मजित मिह (आई० सी०-51771), ए० एम० सी०
—19 दिसम्बर, 1994 ।
- मनोज शैथ (आई० सी०-51773), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- हेमन्त कुमार झा (आई० सी०-51774), इंजिनियर—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- विनय लालड़ा (आई० सी०-51775), आर्टीलरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- सुजीत कुमार (आई० सी०-51776), आर्टीलरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- अनूप सिंह (आई० सी०-51777), इन्फैंटरी—19 दिस-
म्बर, 1994 ।
- सुधीर कुमार चौधरी (आई० सी०-51778), आर्टीलरी
—19 दिसम्बर, 1994 ।
- राजेन्द्र कुमार तिवारी (आई० सी०-51779), सिगनल—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- एम० अश्विन नायडू (आई० सी०-51783), सिगनल—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- कुन्दन कुमार मिह (आई० सी०-51784), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- सिन्धु हरीश रतेश (आई० सी०-51785), आर्टीलरी
—19 दिसम्बर, 1994 ।
- अशिश त्रिपाठी (आई० सी०-51786), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- दीपेश जोशी (आई० सी०-51787), ए० सी०—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- कुलवीर सिंह मखल (आई० सी०-51789), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- लटीफूर रहमान (आई० सी०-51791), आर्टीलरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- कुलराज सिंह काजल (आई० सी०-51792), इन्फैंटरी
—19 दिसम्बर, 1994 ।
- इन्द्र सिंह (आई० सी०-51793), इंजिनियर—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- मिलन मोहन मठ (आई० सी०-51794), इंजिनियर—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- जी०जी० वर्गीज (आई० सी०-51795), ए० एम० सी०
—राजबीर सिंह (आई० सी०-51796), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

- हरमिन्द्र सिंह सन्धी (आई० सी०-51797), इन्फैंटरी--
19 दिसम्बर, 1994 ।
- पंकज नैयानी (आई० सी०-51798), ए० ओ० सी०--
19 दिसम्बर, 1994 ।
- बंकाट बेनुमाधव पों (आई० सी०-51799), इन्फैंटरी--
19 दिसम्बर, 1994 ।
- कर्म जीत सिंह (आई० सी०-51800), ए० ओ० सी०--
19 दिसम्बर, 1994 ।
- जसविन्द्र सिंह चीमा (आई० सी०-51803), आर्टिलरी--
19 दिसम्बर, 1994 ।
- प्रब रवि नारायण (आई० सी०-51804), आर्टिलरी--
19 दिसम्बर, 1994 ।
- सतीश पंगल (आई० सी०-51805), ए० ओ० सी०--
19 दिसम्बर, 1994 ।
- साहूल शर्मा (आई० सी०-51806), आर्टिलरी--
19 दिसम्बर, 1994 ।
- अर्जुन सिंह प्रमार (आई० सी०-51807), इन्फैंटरी--
19 दिसम्बर, 1994 ।
- धिनय शाह (आई० सी०-51808), इन्फैंटरी--
19 दिसम्बर, 1994 ।
- विपता रंजन राय (आई० सी०-51809), आर्टिलरी--
19 दिसम्बर, 1994 ।
- गजानन पांडे (आई० सी०-51810), ए० एस० सी०--
19 दिसम्बर, 1994 ।
- जितेन्द्रा नारायण कुमार (आई० सी०-51811), ए० एस०
सी०--19 दिसम्बर, 1994 ।
- अतुल सुरी (आई० सी०-51812), ए० सी०--
19 दिसम्बर, 1994 ।
- अमित पूर्ति (आई० सी०-51813), इन्फैंटरी--
19 दिसम्बर, 1994 ।
- मनीष जोशी (आई० सी०-51814), ई० एम० ई०--
19 दिसम्बर, 1994 ।
- अजय सिंह नेगी (आई० सी०-51815), ए० एस० सी०--
19 दिसम्बर, 1994 ।
- कुमार प्रतीक (आई० सी०-51816), मेक०--
19 दिसम्बर, 1994 ।
- गंगावती चन्द्रा शेखर (आई० सी०-51818), आर्टी-
लरी--19 दिसम्बर, 1994 ।
- चन्द्र देव कौशल (आई० सी०-51819), इंजिनियर--
19 दिसम्बर, 1994 ।
- अजय कोटियाल (आई० सी०-51821), इन्फैंटरी--
19 दिसम्बर, 1994 ।
- गुन्जोय एम० (आई० सी०-51824), इन्फैंटरी--
19 दिसम्बर, 1994 ।
- बकुल गोसाई (आई० सी०-51825), इन्फैंटरी--
19 दिसम्बर, 1994 ।
- अमिया राय (आई० सी०-51826), ए० ओ० सी०--
19 दिसम्बर, 1994 ।
- राकेश कुमार (आई० सी०-51827), ए० एस० सी०--
19 दिसम्बर, 1994 ।
- एस० प्रेम कुमार (आई० सी०-51828), आर्टिलरी--
19 दिसम्बर, 1994 ।
- सम्राट मेहता (आई० सी०-51829), सिगनल--
19 दिसम्बर, 1994 ।
- रवि श्रीवास्तवा (आई० सी०-51830), आर्टिलरी--
19 दिसम्बर, 1994 ।
- अनुज दयाल माथुर (आई० सी०-51832), सिगनल--
19 दिसम्बर, 1994 ।
- अजित सिंह (आई० सी०-51833), ए० एस० सी०--
19 दिसम्बर, 1994 ।
- प्रीतोष भाहुमिक (आई० सी०-51834), आर्टिलरी--
19 दिसम्बर, 1994 ।
- काशीकर सरंजश्रीवद (आई० सी०-51835), इन्फैंटरी--
19 दिसम्बर, 1994 ।
- कार्तिक दत्त (आई० सी०-51836), इन्फैंटरी--
19 दिसम्बर, 1994 ।
- सुरेश माईकल राज (आई० सी०-51837), आर्टिलरी--
19 दिसम्बर, 1994 ।
- विकाश (आई० सी०-51838), इन्फैंटरी--19
दिसम्बर, 1994 ।
- राजीव राय (आई० सी०-51839), आर्टिलरी--
19 दिसम्बर, 1994 ।
- समीर बलोदी (आई० सी०-51840), इंजिनियर--
19 दिसम्बर, 1994 ।
- बी० बेंकट श्रीनिवास (आई० सी०-51841), आर्टिलरी--
19 दिसम्बर, 1994 ।
- जसमेल सिंह धालिवाल (आई० सी०-51842) ए०
सी०--19 दिसम्बर, 1994 ।
- विजय प्रकाश द्विवेदी (आई० सी०-51843), इन्फैंटरी--
19 दिसम्बर, 1994 ।

- पुनीत अग्रवाल (आई० सी०-51845), ए० ओ०
—19 दिसम्बर, 1994 ।
- प्रशान्त कापने (आई० सी०-51846), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- पिटर सेलेस्टीन एम० (आई० सी०-51847), इन्फैंटरी
—19 दिसम्बर, 1994 ।
- वासुदेवन नारायणन (आई० सी०-51848), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- सुगेन्द्र सिंह (आई० सी०-51850), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- एम० एन० नरेन्द्रनाथ (आई० सी०-51851), इन्फैंटरी
—19 दिसम्बर, 1994 ।
- कोस्तु बनर्जी (आई० सी०-51852), ए० ओ० सी०
—19 दिसम्बर, 1994 ।
- के० टी० गोपाला कृष्णन (आई० सी०-51853),
इन्फैंटरी—19 दिसम्बर, 1994 ।
- शिवेक भट्ट (आई० सी०-51854), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- विभू दिक्षित (आई० सी०-51855), सिगनल—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- नरुण अय्यर (आई० सी०-51856), ए० सी०—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- सुधीर कुमार पाण्डे शास्त्री (आई० सी०-51857),
आर्टीलरी—19 दिसम्बर, 1994 ।
- भोरास्कर समीर वसन्त (आई० सी०-51858), इंजि-
नियर—19 दिसम्बर, 1994 ।
- गोविन्दन आर० (आई० सी०-51860), आर्टीलरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- रोहित गर्मा (आई० सी०-51861), सिगनल—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- मुरली अय्यर (आई० सी०-51862), सिगनल—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- राजेश ब्रह्मी (आई० सी०-51863), ए० एम० सी०
—19 दिसम्बर, 1994 ।
- मनीष कुमार शर्मा (आई० सी०-51864), इंजिनियर
—19 दिसम्बर, 1994 ।
- संदीप लाम्बा (आई० सी०-51865), इंजिनियर—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- प्रदीप सिंह तूवर (आई० सी०-51866), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- संजय शर्मा (आई० सी०-51867), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- वसंतरा संजय (आई० सी०-51868), आर्टीलरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- गैलेन्द्र सिंह (आई० सी०-51869), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- कृष्णा मोहन राय (आई० सी०-51870), वेक०—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- संवर मनमोह (आई० सी०-51873), ए० एम० सी०
—19 दिसम्बर, 1994 ।
- अरिजीत राय (आई० सी०-51874), आर्टीलरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- ललित मोहन शर्मा (आई० सी०-51875), इंजिनियर
—19 दिसम्बर, 1994 ।
- विकाश सिंह (आई० सी०-51876), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- बेबी मेथ्यू (आई० सी०-51877), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- अरुण कांत त्रिपाठी (आई० सी०-51878), आर्टीलरी
—19 दिसम्बर, 1994 ।
- वैवंश मिन्हा (आई० सी०-51880), इन्फैंटरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- आर० अनिल कुमार (आई० सी०-51881), ए० ओ०
सी०—19 दिसम्बर, 1994 ।
- दीपक संधी (आई० सी०-51882), आर्टीलरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- कैलाश नेथानी (आई० सी०-51893), ए० ई० सी०—
19 दिसम्बर, 1994 ।
- मोहन चन्द्र जोशी (आई० सी०-51894), ए० ई० सी०
—19 दिसम्बर, 1994 ।
- मदन मोहन कच्छवाल (आई० सी०-51906), ए० ई०
सी०—19 दिसम्बर, 1994 ।
- नदनी नाथ राय (आई० सी०-51911), ए० ई० सी०
—19 दिसम्बर, 1994 ।
- प्रियादर्शन अग्रवाल (आई० सी०-51914), ए० ई०
सी०—19 दिसम्बर, 1994 ।
- गणेश चन्द्रा (आई० सी०-51633), आर्टीलरी—
19 दिसम्बर, 1994 ।

(परन्तु वेतन और भत्ते 20 जनवरी, 1995 से दिए जायें)

अल्प सेवा कमीशन (एस० एस० सी०)

2/लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट

अभय सिंह (एस० एस०-33299) इन्फैंट्री—05 मार्च 1990।

कमल जितेन्द्रा कुमार चौधरी (एस० एस०-34271) ए० एस० सी०—26 अगस्त 1991।

युधिष्ठिर मोजा (एस० एस०-34485) इन्फैंट्री—09 मार्च 1992।

अशोक भटोटिया (एस० एस०-34539) ए० सी० सी०—25 अगस्त 1992।

कोशिक नन्दी (एस० एस०-34731) इन्फैंट्री—25 अगस्त 1992।

जितेन्द्र सिंह (एस० एस०-34827) आर्टिलरी—09 मार्च 1993।

विकास कुमार रावन (एस० एस०-35029) ए० सी०—07 मार्च 1994।

एस० भगोत्रा (एस० एस०-35035) अंतिम—07 मार्च 1994।

सुरेन्द्र कुमार यादव (एस० एस०-35041) ए० एस० सी०—07 मार्च 1994।

अमित आनन्द पाण्ड्या (एस० एस०-35189) आर्टिलरी—07 मार्च 1994।

स्थायी कमीशन (एस० एस०)

2/लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट

जे० एस० मुस्तानी (एस० एस०-3997) ई० एस० ई०—13 नवम्बर 1994।

ए० के० मलिक
सी० एस० सी०
डी० ए० एस० एस० 8 सी०

सं० 310, दिनांक 31 मार्च, 1995—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नसिंग अफसरों की पदोन्नति करने हैं।

नियमित सेवा

मिलिट्री नसिंग सेवा (स्थायी) ले० से कॅप्टन

श्रीमती एलिस जार्ज (एस० आर०-19023)—8 जुलाई, 1993 से।

श्रीमती उषा कुमारी एस० (एस० आर०-19024)—8 जुलाई, 1993 से।

कुमारी मीना के० जर्मा (एस० आर०-19025)—8 जुलाई, 1993 से।

श्रीमती देवका देवी के० एस० (एस० आर०-19026)—8 जुलाई, 1993 से।

श्रीमती प्रसन्ना सी० आर० (एस० आर०-19027)—8 जुलाई, 1993 से।

श्रीमती श्रीदेवी अम्मा के० जी० (एस० आर०-19030)—8 जुलाई 1993 से।

श्रीमती मन्जुषा के० एस० (एस० आर०-19031)—8 जुलाई, 1993 से।

कुमारी अनूप कुमारी (एस० आर०-19033)—8 जुलाई, 1993 से।

कुमारी सरस्वती पी० (एस० आर०-19034)—8 जुलाई, 1993 से।

कुमारी सी० मुमलक्ष्मी (एस० आर०-19035)—8 जुलाई, 1993 से।

श्रीमती उषा अशोक (एस० आर०-19036)—8 जुलाई, 1993 से।

श्रीमती के० एस० सेविजा (एस० आर०-19037)—8 जुलाई, 1993 से।

कुमारी परबत (एस० आर०-19038)—8 जुलाई, 1993 से।

श्रीमती जतीना (एस० आर०-19039)—8 जुलाई 1993 से।

श्रीमती बी० युनुस (एस० आर०-19040)—8 जुलाई, 1993 से।

श्रीमती शास्वती रुद्रा (एस० आर०-19041)—8 जुलाई, 1993 से।

श्रीमती राज कुमारी (एस० आर०-19042)—8 जुलाई, 1993 से।

श्रीमती गीता सिंह (एस० आर०-19043)—8 जुलाई, 1993 से।

श्रीमती पद्मा रानी कटारिया (एस० आर०-19044)—8 जुलाई, 1993 से।

श्रीमती शाला सिंह (एस० आर०-19045)—8 जुलाई, 1993 से।

श्रीमती पुष्प कान्ता एस० (एस० आर०-19049)—8 जुलाई, 1993 से।

कुमारी एल्जेन डेविड (एस० आर०-19050)—8 जुलाई, 1993 से।

श्रीमती विजय लक्ष्मी एम० (एन० आर०-19051)
—11 जुलाई, 1993 से ।

कुमारी जे० बन्दीपाध्याय (एन० आर०-19052)--
30 अगस्त, 1993 से ।

कुमारी एम० गीता राव (एन० आर०-19053)--
30 अगस्त, 1993 से ।

श्रीमती सी० एम० कैयरीन (एन० आर०-19054)--
30 अगस्त, 1993 से ।

कुमारी लता बी० (एन० आर०-19055)--30
अगस्त, 1993 से ।

श्रीमती जसवीर कौर (एन० आर०-19056)--
30 अगस्त 1993 से ।

कुमारी सुषमा रानी (एन० आर०-19057)--30
अगस्त, 1993 से ।

कुमारी पद्मा कुमारी मतवाल (एन० आर०-19058)
--30 अगस्त, 1993 से ।

श्रीमती लकी भारद्वाज (एन० आर०-19059)--30
अगस्त, 1993 से ।

श्रीमती लिसी जोयफ के० (एन० आर०-19060)--
30 अगस्त, 1993 से ।

श्रीमती फागुनी पाव (एन० आर०-19061)--30
अगस्त, 1993 से ।

कुमारी शंकरा पाव (एन० आर०-19062)--30
अगस्त, 1993 से ।

कुमारी रंजुका रानी एम० (एन० आर०-19063)--
30 अगस्त, 1993 से ।

श्रीमती आशा शर्मा (एन० आर०-19064)--30
अगस्त, 1993 से ।

श्रीमती चौधरी ए० के० (एन० आर०-19065)--
30 अगस्त, 1993 से ।

श्रीमती गायन सात्री (एन० आर०-19066)--30
अगस्त, 1993 से ।

श्रीमती जी० पी० एम० कुमारी (एन० आर०-19068)
--30 अगस्त, 1993 से ।

कुमारी सीमा शर्मा (एन० आर०-19069)--30
अगस्त, 1993 से ।

कुमारी सी० बन्दीपाध्याय (एन० आर०-19071)-
30 अगस्त 1993 से ।

श्रीमती विमला टी० जी० (एन० आर०-19072)-
30 अगस्त 1993 से ।

कुमारी डी० कौर वावर (एन० आर०-19073)-
30 अगस्त 1993 से ।

कुमारी ने० के० बत्तर्जी (एन० आर०-19074)-
30 अगस्त 1993 से ।

श्रीमती नीलिमा कयाल (एन० आर०-19075)--
30 अगस्त 1993 से ।

कुमारी दीरा सरकार (एन० आर०-19076)--30
अगस्त 1993 से ।

श्रीमती अश्वमेधा काशी (एन० आर०-19077)--
30 अगस्त 1993 से ।

कुमारी ए० परमेश्वरी (एन० आर०-19078)--30
अगस्त 1993 से ।

कुमारी निर्मल रानी (एन० आर०-19079)--30
अगस्त 1993 से ।

कुमारी सैरी सार्वी के० (एन० आर०-19081)--
30 अगस्त 1993 से ।

बी० एम० सरस्वती
मेजर जनरल, अति० डी० गी० एन० एन० एम०

या यथा लिख्य

सं० 311, दिनांक 7 अप्रैल, 1995--संश्लेषित,
निम्नलिखित पदोन्नतियां कालों हैं --

निर्दिष्ट फेरा

इन्फैन्ट्री

मकनाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार (निर्दिष्ट) के रैंक में

हवलदार विधिक रणधीर सिंह (सं० 3169266 पी अर
जे० सी०-418327 पी)--8 नवम्बर 1994 ।*

*[नायब सूबेदार (निर्दिष्ट) के रैंक में व्रतन और भर्तों
पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1994 से
दी जायेगी] ।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार महेन्द्र सिंह (सं० 4164055 बाईअर जे०
सी०-418328 एकम)--31 अगस्त 1994 ।*

*[नायब सूबेदार के रैंक में व्रतन और भर्तों पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता 3 जुलाई 1994 से दी
जायेगी] ।

हवलदार ह्याल सिंह (सं० 4167384 ए अत्र जे० सी०-418329 ए)---6 नवम्बर 1994 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 3 जुलाई 1994 से दी जायेगी) ।

हवलदार उदय सिंह (सं० 2870428 एफ अत्र जे० सी०-418330 पी)---6 जनवरी 1995 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 मार्च 1994 से दी जाएगी) ।

हवलदार अर्जुन सिंह (सं० 2870441 एफ अत्र जे० सी०-418331 एफ)---6 जनवरी 1995 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 अप्रैल 1994 से दी जाएगी) ।

हवलदार हरश्रीर सिंह (सं० 14901357 पी अत्र जे० सी०-418332 ए)---5 नवम्बर 1994 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 मई 1994 से दी जाएगी) ।

हवलदार महेश लाल (सं० 13716681 वाई अत्र जे० सी०-418333 एफ)---29 नवम्बर 1994 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 मई 1994 से दी जाएगी) ।

हवलदार सुबोध सिंह (सं० 3169280 एफ अत्र जे० सी०-418334 एल)---17 नवम्बर 1994 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 मई 1994 से दी जाएगी) ।

हवलदार आठवे नारायण मिश्रा (सं० 14900045 एम अत्र जे० सी०-418335 एन)---2 नवम्बर 1994 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून 1994 से दी जाएगी) ।

हवलदार राम प्रकाश (सं० 4170823 एन अत्र जे० सी०-418336 एफ)---5 नवम्बर 1994 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 2 जून 1994 से दी जाएगी) ।

हवलदार नायब सिंह (सं० 14901312 ए अत्र जे० सी०-418337 वाई)---6 जनवरी 1995 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 4 जून 1994 से दी जाएगी) ।

हवलदार मदन लाल (सं० 14901844 पी अत्र जे० सी०-418338 एफ)---6 जनवरी, 1995 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 4 जून 1994 से दी जाएगी) ।

हवलदार सुबोध सिंह (सं० 2672403 ए अत्र जे० सी०-418339 के)---8 नवम्बर 1994 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 1994 से दी जाएगी) ।

हवलदार दिलीप सिंह (सं० 2870704 पी अत्र जे० सी०-418340 वाई)---6 जनवरी 1995 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 1994 से दी जाएगी) ।

हवलदार विशाल अहलुवाल (सं० 4546794 एफ अत्र जे० सी०-418341 एफ)---3 नवम्बर 1994 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 1994 से दी जाएगी) ।

हवलदार प्रदीप सिंह रावत (सं० 4547008 वाई अत्र जे० सी०-418342 के)---10 जनवरी 1995 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1994 से दी जाएगी) ।

हवलदार धूप सिंह (सं० 2973367 एल अत्र जे० सी०-418343 एम)---24 अगस्त 1994 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 2 अगस्त 1994 से दी जाएगी) ।

हवलदार विजय सिंह (सं० 2870828 ए अत्र जे० सी०-418344 पी)---6 जनवरी 1995 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 2 अगस्त 1994 से दी जाएगी) ।

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं० 3167054 एन अत्र जे० सी०-418345 एफ) -- 22 दिसम्बर, 1994।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 अगस्त, 1994 दी जाएगी) ।

हवलदार जगदीश प्रसाद (सं० 3168429 एन अत्र जे० सी०-418346 ए) -- 22 दिसम्बर, 1994।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 अगस्त, 1994 से दी जाएगी) ।

हवलदार महाबिर (सं० 3167217 एन अत्र जे० सी०-418347 एफ) -- 22 दिसम्बर, 1994।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 अगस्त, 1994 से दी जाएगी) ।

हवलदार कुरार सिंह (सं० 4547186 एफ अत्र जे० सी०-418348 एल) -- 03 जनवरी, 1995।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 अगस्त, 1994 से दी जाएगी) ।

वर्चित कोर

नायब रिमालदार के रैंक में

दफादार किशोरी लाल (सं० 1050707 एच अत्र जे० सी०-236206 एम) -- 01 मई, 1994।

एम० व्ही० एम० डी० अभिलाष सिंह (सं० 1051764 एफ अत्र जे० सी०-236207 पी) -- 13 मई, 1994।*

*(नायब रिमालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 मई, 1994 से दी जाएगी) ।

दफादार सवाई सिंह (सं० 1055532 डब्ल्यू अत्र जे० सी०-236208 एन) -- 30 मई, 1994।*

*(नायब रिमालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी, 1994 से दी जाएगी) ।

दफादार मुख्तियार सिंह (सं० 1055600 वाई अत्र जे० सी०-236209 ए) -- 4 अप्रैल, 1994।*

*(नायब रिमालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च, 1994 से दी जाएगी) ।

दफादार सतबीर सिंह (सं० 1055637 ए अत्र जे० सी०-236210 पी) -- 8 मार्च, 1994।*

*(नायब रिमालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च, 1994 से दी जाएगी) ।

दफादार अजायब सिंह (सं० 1055703 के अत्र जे० सी०-236211 एन) -- 30 अगस्त, 1994।*

*(नायब रिमालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च, 1994 से दी जाएगी) ।

दफादार शिव रत्न सिंह (सं० 1053307 एच अत्र जे० सी०-236212 ए) -- 1 मार्च, 1994।

दफादार सालुके पाडुंग बापू (सं० 1053311 एल अत्र जे० सी०-236213 एच) -- 20 अप्रैल, 1994।*

*(नायब रिमालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मार्च, 1994 से दी जाएगी) ।

दफादार गिरधारी लाल धवाई (सं० 1053371 ए अत्र जे० सी०-236214 एल) -- 1 मार्च, 1994।

दफादार जगनाल सिंह (सं० 1053518 ए अत्र जे० सी०-236215 एन) -- 1 मार्च, 1994।

दफादार मुख्तियार सिंह (सं० 1052475 पी अत्र जे० सी०-236216 डब्ल्यू) -- 1 अप्रैल, 1994।

दफादार राम सिंह गुर्जर (सं० 1053615 एच अत्र जे० सी०-236217 वाई) -- 1 अप्रैल, 1994।

दफादार चत्तर सिंह (सं० 1055548 एफ अत्र जे० सी०-236218 एफ) -- 1 जनवरी, 1994।

दफादार रघुवर सिंह धनकरे (सं० 1056100 एन अत्र जे० सी०-236219 के) -- 6 फरवरी, 1994।

दफादार अजीत सिंह (सं० 1054574 डब्ल्यू अत्र जे० सी०-236220 वाई) -- 20 फरवरी, 1994।

दफादार गिरधारी लाल (सं० 1055514 एन अत्र जे० सी०-236222 के) -- 15 मार्च, 1994।

दफादार अनुरुध सिंह (सं० 1052264 एम अत्र जे० सी०-236223 एम) -- 1 अप्रैल, 1994।

दफादार जय राम सिंह (सं० 1052255 एल अत्र जे० सी०-236225 पी) -- 17 अप्रैल, 1994।

आर० डी० एम० हनी राय (सं० 1050082 ए अत्र जे० सी०-236226 एफ) -- 18 अप्रैल, 1994।

दफादार राम लखन (सं० 14320050 एफ अत्र जे० सी०-236227 के) -- 1 जून, 1994।*

*(नायब रिमालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी, 1994 से दी जाएगी) ।

एस० डी० एम० बचिस्तर सिंह (सं० 1052538 एम अत्र जे० सी०-236235 एफ) -- 1 अप्रैल, 1994।

दफादार हनुमान महाय (सं० 1052463 ए अत्र जे० सी०-236236 के)---1 अप्रैल, 1994।

दफादार चित्रपाल सिंह (सं० 1055040 एक्स अत्र जे० सी०-236237 एम)---14 अप्रैल, 1994।

दफादार शिव कुमार सिंह (सं० 1052208 के अत्र जे० सी०-236238 एफ)---1 मई, 1994।

दफादार कश्मीर सिंह (सं० 1056108 ए अत्र जे० सी०-236239 एक्स)---13 मई, 1994।

दफादार सरजीत सिंह (सं० 1056234 एम अत्र जे० सी०-236240 एम)---1 जून, 1994।

दफादार अमरजीत सिंह (सं० 1056277 एफ अत्र जे० सी०-236241 पी)---1 जून, 1994।

दफादार रनवीर सिंह (सं० 1050995 एफ अत्र जे० सी०-236243 ए)---1 जून, 1994।

एस० डी० एम० सेवा सिंह (सं० 1055029 वाई अत्र जे० सी०-236244 एच)---12 जून, 1994।

आर० डी० एम० बलजिन्दर सिंह (सं० 1055955 के अत्र जे० सी०-236245 के)---17 जून, 1994।

दफादार हुसैन खान (सं० 1046826 एच अत्र जे० सी०-236246 एन)---01 जुलाई, 1994।

दफादार पाली राम लोहन (सं० 1054684 एल अत्र जे० सी०-236247 डब्ल्यू)---1 जनवरी, 1994।

दफादार मतवीर सिंह रेडू (सं० 1053811 एच अत्र जे० सी०-236248 वाई)---1 जनवरी, 1994।

दफादार महावीर सिंह (सं० 1053822 पी अत्र जे० सी०-236253 के)---1 जनवरी, 1994।

दफादार भूपिन्दर सिंह (सं० 1054372 पी अत्र जे० सी०-236254 एम)---16 फरवरी, 1994।*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी, 1994 से दी जायेगी)।

आर० डी० एम० इन्द्रजीत सिंह (सं० 1053931 एफ एफ अत्र जे० सी०-236255 पी)---1 जनवरी, 1994।

दफादार प्रीतम सिंह (सं० 1054373 एक्स अत्र जे० सी०-236256 एक्स)---2 फरवरी, 1994।

दफादार तारा चन्द (सं० 1053918 एक्स अत्र जे० सी०-236257 ए)---1 फरवरी, 1994।

दफादार सहदेवन टी० (सं० 1058340 के अत्र जे० सी०-236258 एच)---2 फरवरी, 1994।*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी, 1994 से दी जायेगी)।

दफादार जय सिंह राठोर (सं० 1054060 वाई अत्र जे० सी०-236259 एल)---25 फरवरी, 1994।

दफादार वजरंग सिंह शोखावत (सं० 1052762 एन अत्र जे० सी०-236260 एफ)---01 मार्च, 1994।

दफादार दर्शन सिंह सैनी (सं० 1051244 एन अत्र जे० सी०-236261 के)---1 अप्रैल, 1994।

दफादार सुमेर सिंह (सं० 1055528 एन अत्र जे० सी० 236262 एम)---1 अप्रैल, 1994।

दफादार मुखमिन्दर सिंह (सं० 1052395 एक्स अत्र जे० सी०-236263 पी), 01 अप्रैल, 1994।

एस० डी० एम० शेख अहमद बाशा (सं० 1055329 ए अत्र जे० सी०-236264 एक्स)---1 अप्रैल, 1994।

आर० डी० एम० रमेश चन्द्र (सं० 1053846 वाई अत्र जे० सी०-236265 ए)---24 अप्रैल, 1994।

दफादार व्यास देव (सं० 1052515 एल अत्र जे० सी०-236267 एल)---22 मई, 1994।

एस० डी० एम० विश्वानाथन सी० (सं० 1055377 ए० अत्र जे० सी०-236268 एन)---1 जून, 1994।

एस० डी० एम० बुरई स्वामी एम० (सं० 1055389 पी अत्र जे० सी०-236269 डब्ल्यू)---1 जून, 1994।

दफादार शिरोमनि सिंह (सं० 1058408 ए अत्र जे० सी०-236270 के)---1 जून, 1994।

राष्ट्रपति के अंगरक्षक

नायब रिसालदार (जी० डी०) के रैंक में

दफादार पृथी सिंह (सं० 13700280 एल अत्र जे० सी०-2350010 एम)---15 फरवरी, 1995।

रा० ग० हेगड़े,
अवर सचिव

सं० 312, दिनांक 6 अप्रैल, 1995---राष्ट्रपति, निम्न-लिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

(नियमित सेना)

तोपखाना रेजिमेंट

सब्सटेंटिब सूबेदार मेजर (जी०डी०) के पद में

सूबेदार अंगामुथु गोपाल (जे० सी०-129836 पी)---1 अक्टूबर, 1994।

सब्सटेंटिब सूबेदार मेजर (ए० आई० जी०) के पद में

सूबेदार सूरज भान (जे० सी०-106657 एच)---1 अक्टूबर, 1994।

सब्सटेंटिव सूबेदार (जी० डी०) के पद में

नायब सूबेदार सोहन लाल (जे० सी०-179221 ए)

--01 जुलाई, 1994।

नायब सूबेदार रोशन लाल (जे० सी०-178933 डब्ल्यू)--01 अक्टूबर, 1994।

सब्सटेंटिव सूबेदार (ए० आई० जी०) के पद में

नायब सूबेदार दिलबाग सिंह (जे० सी०-209374 एफ)--01 अक्टूबर, 1994।

नायब सूबेदार ज्ञान सिंह (जे० सी०-215370 एफ)--01 नवम्बर, 1994।

सब्सटेंटिव सूबेदार (टी० आई० एफ० सी०) के पद में

नायब सूबेदार किशोरी लाल (जे० सी०-185939 ए)--01 सितम्बर, 1994।

नायब सूबेदार नन्द किशोर यादव (जे० सी०-175586 एक्स)--01 सितम्बर, 1994।

प्रकाश चन्द,
अवर सचिव

सेना शाखा

(क्यू० एम० जी० शाखा)

सं० 313, दिनांक 31 मार्च, 1995—क्यू० एम० जी० शाखा के सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी श्री बी० सम्बन्धम (जन्म तिथि 9 मार्च, 1937), 9 मार्च, 1995 को 58 वर्षे निर्वतन आयु की प्राप्त होने पर दिनांक 31 मार्च, 1995 (अनुराह्न) से सेवा से निवृत्त तथा दिनांक 1 अप्रैल, 1995 (पूर्वाह्न) से पैनल स्थानता में स्थानान्तरित।

रेतू के० राजू,
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

थल सेना विभाग

शुद्धि पत्र

सं० 314, दिनांक 7 अप्रैल 1995—रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 944 दिनांक 13 अक्टूबर, 1994 में भारत के राजपत्र संख्या 46 दिनांक 12 नवम्बर, 1994 शीर्षक नियमित सेना उप शीर्षक 'तोपखाना रेजिमेन्ट' के अन्तर्गत :—

नायब सूबेदार के पद में

के स्थान पर :— हवलदार राजेन्द्रन के० के० (सं० 14452472 पी अरब जे० सी०-256447 एन)--01 जुलाई, 93।

पढ़ा जाये :— हवलदार राजेन्द्रन के० के० (सं० 14452472 पी अरब जे० सी०-256447 एन)--29 अक्टूबर, 1993।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 जुलाई, 1993)।

के स्थान पर :— हरपाल सिंह (सं० 14316129 एम अरब जे० सी०-256454 के)--29 अक्टूबर, 1993।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 जुलाई, 1993)।

पढ़ा जाए :— हरपाल सिंह (सं० 1436129 एम अरब जे० सी०-256454 के)--3 दिसम्बर, 1993।*

*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त, 1993)।

हवलदार हरबंस सिंह (सं० 13809296 एम अरब जे० सी०-256445 एच)--01 जुलाई, 1993।

प्रकाश चन्द
अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

D G Q A

New Delhi, the 6th May 1995

No. 308, dated 3rd April 1995.—The President is pleased to appoint Smt. Archana Rai, Civilian Staff Officer, as Selection Grade Officer (SCSO) in the AFHQ Civil Service for the period from 07-11-94 to 31-03-95 or till regular incumbents become available, whichever is earlier.

The above appointment is made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

Shri Chaman Lal, Assistant Civilian Staff Officer, is appointed as Civilian Staff Officer in the AFHQ Civil Service for a period from 17-01-95 to 30-04-95 or till regular incumbents become available, or till such time the individual retires, whichever is the earliest.

The appointment is made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

The following Assistants (Gp. 'B'—Non-Gazetted) are appointed as officiating Assistant Civilian Staff Officer (Gp. 'B'—Gazetted) in the AFHQ Civil Service w.e.f. the dates mentioned against their names, until further orders—

Name and Date of appointment as ACSO

S/Shri

Chander Prakash—5 Jan '95 (F/N).

R L Paul—5 Jan '95 (F/N).

Madhukar Dinkarrao Nimkar—5 Jan '95 (F/N).

Ram Swarup—1 Feb '95 (F/N).

Balbir Singh Arora—1 Feb '95 (F/N).

The abovementioned appointments are subject to modification as may be necessary in the implementation of judgement in various cases regarding seniority and promotion before Courts.

RENU K RAJU
Dy. Chief Administrative Officer

(ARMY BRANCH)

No. 309, dated 7th April 1995.—The President is pleased to make the following promotion :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

2/Lt to be Lt

Anupam Chhettri (IC-40939) Inf—24 Dec 84.
 Sukhvinder Singh (IC-44411) Arty—20 Dec 88.
 Jagtar Singh Kang (IC-44730) Inf—13 Jun 89.
 Yash Sexena (IC-47105) Inf—19 Dec 89.
 Ajit Kumar Punia (IC-47360) Inf—19 Dec 89.
 Anshul Bhargava (IC-47402) AC—19 Dec 89.
 P Madhusudanan (IC-48220) AOC—17 Dec 90.
 Jitender Pandit (IC-50396) Engrs—08 Jun 93.
 Amit Mohna (IC-50474) Engrs—08 Jun 93.
 Sangeet Budhwar (IC-50641) Sigs—08 Jun 93.
 Satya Narain (IC-50754) Inf—14 Dec 93.
 Mukesh Kumar (IC-51115) Engrs—13 Jun 94.
 S Premjit Singh (IC-51117) Engrs—13 Jun 94.
 Abhey Pal Singh Hansi (IC-51126) Engrs—13 Jun 94.
 Rajesh Mehta (IC-51138) EME—13 Jun 94.
 Randeep Singh (IC-51148) Arty—13 Jun 94.
 Badri Prasad (IC-51172) Inf—13 Jun 94.
 Rajiv Chauhan (IC-51190) Arty—13 Jun 94.
 G Manoj (IC-51191) EME—13 Jun 94.
 Narendra Pratap Singh (IC-51195) Sigs—13 Jun 94.
 Ashok Kumar (IC-51219) Arty—13 Jun 94.
 Rajnish Gambhir (IC-51222) Arty—13 Jun 94.
 Rajesh Joy Vivian Ohol (IC-51230) Arty—13 Jun 94.
 Sameer Srivastava (IC-51233) Inf—13 Jun 94.
 Samar Singh Chandel (IC-51235) Inf—13 Jun 94.
 Dam Bahadur Gurung (IC-51238) Inf—13 Jun 94.
 Salil Seth (IC-51240) Mech—13 Jun 94.
 Santosh Kumar Mishra (IC-51251) AOC—13 Jun 94.
 Ashutosh Kumar Singh (IC-51252) Inf—13 Jun 94.
 Dhananjay Mehta (IC-51260) Sigs—13 Jun 94.
 Parminder Singh (IC-51269) Arty—13 Jun 94.
 Mahecha Dharamveer (IC-51282) Inf—13 Jun 94.
 Om Prakash Jangid (IC-51285) Arty—13 Jun 94.
 Salash Uniyal (IC-51291) Arty—13 Jun 94.
 Menon Rajesh Erekkath (IC-51307) Sigs—13 Jun 94.
 Sanjay Bhardwaj (IC-51309) Arty—13 Jun 94.

Navtej Singh Kalsey (IC-51314) Arty—13 Jun 94.
 Gautam Das (IC-51332) Arty—13 Jun 94.
 Vikrant Lakhnopal (IC-51336) Sigs—13 Jun 94.
 Sanjay Chaudhary (IC-51348) EME—13 Jun 94.
 Gaurav Mathur (IC-51368) Arty—13 Jun 94.
 Sattigiri Jitendra Pandurang (IC-51370) Arty—13 Jun 94.
 Paras Mehra (IC-51372) Inf—13 Jun 94.
 Milind Shyamsunder Thosar (IC-51374) Sigs—13 Jun 94.
 Shubhajeet Sircar (IC-51378) Engrs—13 Jun 94.
 Amrendar Jit Singh (IC-51381) Arty—13 Jun 94.
 Arun Malik (IC-51467) Inf—19 Dec 94.
 Gopendra Singh Rathore (IC-51468) Inf—19 Dec 94.
 Benny Mathew (IC-51471) AOC—19 Dec 94.
 Jagbir Singh Yadav (IC-51472) Engrs—19 Dec 94.
 Rajiv Krishan (IC-51473) Sigs—19 Dec 94.
 Sunil Sheoran (IC-51474) Inf—19 Dec 94.
 Amit Talwar (IC-51475) AC—19 Dec 94.
 Pradeep Singh Chhonkar (IC-51476) Inf—19 Dec 94.
 Jagdeep Chauhan (IC-51480) Arty—19 Dec 94.
 Arvinder Pal Singh Kang (IC-51482) Sigs—19 Dec 94.
 T Vinod Reddy (IC-51483) Mech—19 Dec 94.
 Ashish Maini (IC-51484) ASC—19 Dec 94.
 Sanjay Sharma (IC-51485) Arty—19 Dec 94.
 Yashvir Singh (IC-51486) ASC—19 Dec 94.
 Uttam Dixit (IC-51487) Inf—19 Dec 94.
 Jai Prakash Singh (IC-51488) Arty—19 Dec 94.
 Sudesh Kumar Verma (IC-51489) Arty—19 Dec 94.
 Lawinder Singh (IC-51491) Inf—19 Dec 94.
 Tejinder Singh Hara (IC-51492) AC—19 Dec 94.
 Vanguru Raghu (IC-51493) Sigs—19 Dec 94.
 Dinesh Pathania (IC-51494) Inf—19 Dec 94.
 Amitabh Roy (IC-51498) Arty—19 Dec 94.
 Amit Sharma (IC-51499) Arty—19 Dec 94.
 Tikka Yuvraj Singh Bedi (IC-51501) Arty—19 Dec 94.
 Kabir Kashyap (IC-51503) Engrs—19 Dec 94.
 Virender (IC-51504) ASC—19 Dec 94.
 Aseem Grover (IC-51505) Inf—19 Dec 94.
 Rajbir Singh (IC-51507) Arty—19 Dec 94.
 Param Preet Singh (IC-51508) Inf—19 Dec 94.
 Som Raj (IC-51510) AOC—19 Dec 94.
 Abhimanyu Singh Rathore (IC-51511) ASC—19 Dec 94.
 Sameer Samuel Rajamani (IC-51513) Sigs—19 Dec 94.

Praveen Kabthiyal (IC-51514) Inf—19 Dec 94.	Rajbir Singh (IC-51562) AOC—19 Dec 94.
Satish Kumar Sharma (IC-51515) Inf—19 Dec 94.	Sanket Kumar Suri (IC-51563) Inf—19 Dec 94.
Gurpreet Singh Bajwa (IC-51516) Arty—19 Dec 94.	Kuleshwar Singh Dhadwal (IC-51564) Inf—19 Dec 94.
Jasvir Singh Verma (IC-51517) Sigs—19 Dec 94.	Deependra Singh Chamyal (IC-51566) AOC—19 Dec 94.
Chandra Shekhar Agarwal (IC-51518) Inf—19 Dec 94.	Francis Thomas (IC-51567) ASC—19 Dec 94.
Hardeep Singh Chhatwal (IC-51519) Arty—19 Dec 94.	Ravroop Singh (IC-51568) Inf—19 Dec 94.
Gramopadhye Hrishikesh Bhalchandra (IC-51520) Inf—19 Dec 94.	Sudhir Kumar Nayak (IC-51569) Sigs—19 Dec 94.
Anil Kumar Srivastava (IC-51521) Inf—19 Dec 94.	Amit Misra (IC-51570) Arty—19 Dec 94.
Arunava Kundoo (IC-51522) ASC—19 Dec 94.	Narendra Singh Rawat (IC-51571) Engrs—19 Dec 94.
Manoj Talwar (IC-51523) Inf—19 Dec 94.	Nitin Kapoor (IC-51572) Sigs—19 Dec 94.
Ashutosh Singh (IC-51525) AC—19 Dec 94.	John Gautam Gopalan (IC-51573) AC—19 Dec 94.
Abhijeet Shashikant Valbe (IC-51526) Arty—19 Dec 94.	Digvijay Singh Basera (IC-51574) Inf—19 Dec 94.
Naresh Arya (IC-51527) Arty—19 Dec 94.	Jagdev Singh (IC-51575) ASC—19 Dec 94.
Shailesh Chandra Chaturvedi (IC-51528) AOC—19 Dec 94.	Rohit Sondh (IC-51576) Inf—19 Dec 94.
KS Abdul Khader (IC-51529) Arty—19 Dec 94.	Badal Chandra Roy (IC-51577) AOC—19 Dec 94.
Sunil Mohanty (IC-51530) Inf—19 Dec 94.	Sanatan Singh (IC-51578) Arty—19 Dec 94.
Ramchand Suresh Sovani (IC-51531) Sigs—19 Dec 94.	Harmeet Singh (IC-51579) Arty—19 Dec 94.
Jitendra Kumar (IC-51532) Inf—19 Dec 94.	Chandra Bahadur Pun (IC-51580) Inf—19 Dec 94.
Ram Singh Thapa (IC-51533) Inf—19 Dec 94.	Rajendra Singh (IC-51581) Arty—19 Dec 94.
M Guffam Zakarya (IC-51534) Inf—19 Dec 94.	Rajnish Kumar Bali (IC-51582) Inf—19 Dec 94.
Virendra Singh Sangwan (IC-51535) AOC—19 Dec 94.	Jagdish Chauhan (IC-51583) Engrs—19 Dec 94.
Suresh Kumar Bhambhu (IC-51536) Inf—19 Dec 94.	Vibhor Madhwal (IC-51584) ASC—19 Dec 94.
Nixon Harnal (IC-51537) Arty—19 Dec 94.	Vipin Chopra (IC-51585) Engrs—19 Dec 94.
Jaswinder Singh (IC-51539) Inf—19 Dec 94.	Ashish Ahuja (IC-51586) Inf—19 Dec 94.
Shiv Kumar Gupta (IC-51542) Sigs—19 Dec 94.	S Murugananthan (IC-51588) Arty—19 Dec 94.
Raju Batra (IC-51543) Engrs—19 Dec 94.	Bharat Mehiani (IC-51589) Arty—19 Dec 94.
Abhijeet Sarkar (IC-51544) EME—19 Dec 94.	Gaurav Singhal (IC-51591) EME—19 Dec 94.
Rajul Rathi (IC-51545) ASC—19 Dec 94.	Balwan Singh (IC-51593) ASC—19 Dec 94.
P Kandasamy (IC-51546) Arty—19 Dec 94.	Perminder Pal Singh Sandhu (IC-51594) AOC—19 Dec 94.
Amitabh Mishra (IC-51547) Engrs—19 Dec 94.	Yogesh Mehta (IC-51595) AC—19 Dec 94.
Narayan Singh (IC-51548) Inf—19 Dec 94.	Hartej Pal Singh Shergill (IC-51598) AC—19 Dec 94.
Sandeep Jaswal (IC-51549) Inf—19 Dec 94.	Rawinder Singh Ball (IC-51599) Inf—19 Dec 94.
Brijendra Singh Kadian (IC-51550) ASC—19 Dec 94.	Udal Singh Udawat (IC-51600) AC—19 Dec 94.
Prathal N Prasannan (IC-51552) Mech—19 Dec 94.	Uttam Hukku (IC-51601) Arty—19 Dec 94.
Deepinder Singh Cheema (IC-51553) Inf—19 Dec 94.	Manish Kumar (IC-51602) Inf—19 Dec 94.
Ajay Gogna (IC-51554) Arty—19 Dec 94.	Sanjeev Kumar (IC-51604) ASC—19 Dec 94.
Sanjeev Kumar Khara (IC-51555) Inf—19 Dec 94.	Maneesh Saxena (IC-51605) Inf—19 Dec 94.
Rajesh Singh Thakur (IC-51556) Arty—19 Dec 94.	Vinod Kumar Rautela (IC-51606) Arty—19 Dec 94.
Ashvani Kumar Singh (IC-51557) Inf—19 Dec 94.	Sudeep Singh (IC-51607) AOC—19 Dec 94.
Kamlesh Kumar Agarwal (IC-51558) ASC—19 Dec 94.	Devbrat Kundalia (IC-51608) EME—19 Dec 94.
Prakash Singh Dasgani (IC-51559) Inf—19 Dec 94.	Anoop Singh Panwar (IC-51609) Engrs—19 Dec 94.
Lohe Om Prakash (IC-51561) AC—19 Dec 94.	Jagdeep Kapoor (IC-51610) Engrs—19 Dec 94.

- Anup Singh (IC-51611) Inf—19 Dec 94.
 Nagendra Pillai (IC-51612) Sigs—19 Dec 94
 Sallan Rajesh Hanishchandra (IC-51613) Engrs—19 Dec 94.
 Kulbir Singh (IC-51614) Inf—19 Dec 94.
 Paramvir Singh (IC-51615) Inf—19 Dec 94.
 Datar Santosh Suresh (IC-51616) Arty—19 Dec 94.
 Pankaj Devgan (IC-51619) ASC—19 Dec 94.
 Gaurav Sahal (IC-51620) Inf—19 Dec 94.
 Dogra Ajay Singh Punjab Singh (IC-51621) EME—19 Dec 94.
 BVS Shiva Rao (IC-51622) ASC—19 Dec 94.
 Irfan Mehdi Abdi (IC-51623) Arty—19 Dec 94.
 Rohit Khare (IC-51624) Inf—19 Dec 94.
 Sanjay Kaushik (IC-51625) ASC—19 Dec 94.
 Arindam Majumdar (IC-51626) Inf—19 Dec 94.
 Tarun Kumar (IC-51628) Arty—19 Dec 94.
 CM Bopanna (IC-51630) Mech—19 Dec 94.
 Deepak Kapoor (IC-51632) Inf—19 Dec 94.
 Ganesh Chandra (IC-51633) Arty—19 Dec 94 (but pay & Alces from 20-1-93).
 Sunil Kumar Nayaham (IC-51634) Inf—19 Dec 94.
 Sirish Singh (IC-51636) ASC—19 Dec 94.
 Anuj Katarla (IC-51637) Arty—19 Dec 94.
 Ranjan Manocha (IC-51638) Arty—19 Dec 94.
 George Augustin (IC-51639) Inf—19 Dec 94.
 Digvijay Singh Katal (IC-51640) ASC—19 Dec 94.
 Rajagopal K (IC-51641) Sigs—19 Dec 94.
 Navrattan Singh (IC-51642) Inf—19 Dec 94.
 D'souza Russell (IC-51643) Mech—19 Dec 94.
 Arun Kumar (IC-51644) EME—19 Dec 94.
 Rahul Misra (IC-51647) AC—19 Dec 94.
 Shikhar Kumar (IC-51648) Inf—19 Dec 94.
 Tamal Sen Gupta (IC-51649) Inf—19 Dec 94.
 Girish Shah (IC-51651) Arty—19 Dec 94.
 Ravindra Nath Sairam Balaji (IC-51653) Engrs—19 Dec 94.
 Rakesh Barthwal (IC-51654) AC—19 Dec 94.
 Neeraj Sood (IC-51655) Inf—19 Dec 94.
 Shreekanth Narayan (IC-51656) Arty—19 Dec 94.
 Gaurav Gupta (IC-51657) Sigs—19 Dec 94.
 B Ajit (IC-51658) Inf—19 Dec 94.
 Sunir Khatri (IC-51659) ASC—19 Dec 94.
 Chitnis Manish Satishchandra (IC-51661) Inf—19 Dec 94.
 Rishi Raj Yadav (IC-51662) AOC—19 Dec 94.
 Irwin Jit Singh Mahal (IC-51664) Engrs—19 Dec 94.
 Brijesh Singh (IC-51665) Inf—19 Dec 94.
 Rajnish Nathawat (IC-51666) Mech—19 Dec 94
 Devan G (IC-51667) Arty—19 Dec 94.
 Padam Singh Janghu (IC-51668) AOC—19 Dec 94.
 Rajesh Garg (IC-51669) Inf—19 Dec 94.
 Mandeep Rathore (IC-51670) Inf—19 Dec 94.
 Devender Singh Rawat (IC-51671) Arty—19 Dec 94.
 Pankaj Gupta (IC-51672) Arty—19 Dec 94.
 Gajendra Singh Yadav (IC-51673) Inf—19 Dec 94.
 Arvind Singh Thakur (IC-51674) AOC—19 Dec 94.
 KB Venugopal (IC-51675) Inf—19 Dec 94.
 Anuj Kumar (IC-51676) AC—19 Dec 94.
 Jagwant Singh Schrawat (IC-51678) Inf—19 Dec 94.
 Rajeev Malhotra (IC-51680) Engrs—19 Dec 94.
 Rajeev Kumar Singh (IC-51681) ASC—19 Dec 94.
 Vinay Rao Chauhan (IC-51682) Inf—19 Dec 94.
 Jaldeep Singh Sohi (IC-51685) Arty—19 Dec 94.
 Ashish Gambhir (IC-51687) Engrs—19 Dec 94.
 Ketan Bahadur Thapa (IC-51688) Inf—19 Dec 94.
 TV Swamy (IC-51689) Inf—19 Dec 94.
 Sanjeev Pant (IC-51690) Inf—19 Dec 94.
 Vishnu Kumar Bhardwaj (IC-51692) AOC—19 Dec 94.
 Rajeev Kumar (IC-51696) Arty—19 Dec 94.
 Sanjiv Prakash Das (IC-51697) AOC—19 Dec 94.
 Peeyush Khandurie (IC-51699) ASC—19 Dec 94.
 Budhori Bhupendra Ghanshayam (IC-51700) EME—19 Dec 94.
 Jogendra Singh (IC-51701) Arty—19 Dec 94.
 Anand Lal (IC-51702) Arty—19 Dec 94.
 Naresh Sharma (IC-51703) AOC—19 Dec 94.
 Satinder Pal Singh Rathore (IC-51704) AC—19 Dec 94.
 Jasjit Singh Sidhu (IC-51705) Arty—19 Dec 94.
 Vinod S (IC-51706) Inf—19 Dec 94.
 Kulkarni Vikrant Narsinha (IC-51707) Inf—19 Dec 94.
 Devendra Singh Shekhawat (IC-51708) Arty—19 Dec 94.
 Manjeet Singh Kalra (IC-51709) Inf—19 Dec 94.
 Navneet Gumasta (IC-51710) Int—19 Dec 94.
 Sugato Sen (IC-51711) Inf—19 Dec 94.
 A Raja Pillai (IC-51712) Inf—19 Dec 94.
 Mukul Saxena (IC-51713) Inf—19 Dec 94.
 Surinder Kumar (IC-51714) Inf—19 Dec 94.
 Khobragade Vivek Ganpatrao (IC-51716) AC—19 Dec 94.
 Digvijay Singh Punia (IC-51717) Inf—19 Dec 94.
 Anil Jaithalia (IC-51718) Arty—19 Dec 94.

Rakesh Mishra (IC-51719) Engrs—19 Dec 94.	John James Abraham (IC-51766) Arty—19 Dec 94.
Shailendra Kumar Singh (IC-51720) AOC—19 Dec 94.	Balvinder Singh Madhok (IC-51767) Arty—19 Dec 94
S Kandasamy (IC-51721) Inf—19 Dec 94.	Rajkumar Mallik (IC-51768) Inf—19 Dec 94.
Sanjay Kandari (IC-51722) ASC—19 Dec 94.	Tushar Srivastava (IC-51769) Arty—19 Dec 94.
Pramod Lal (IC-51723) Arty—19 Dec 94.	Anup Ludra (IC-51770) AC—19 Dec 94.
Paramjit Singh Chahal (IC-51724) Arty—19 Dec 94.	Karamjit Singh (IC-51771) ASC—19 Dec 94
Vibhuji Tripathi (IC-51726) ASC—19 Dec 94.	Manoj Mathew (IC-51773) Inf—19 Dec 94.
Yogendra Singh (IC-51727) Inf—19 Dec 94.	Hemant Kumar Jha (IC-51774) Engrs—19 Dec 94.
Atul Bindra (IC-51728) Arty—19 Dec 94.	Vinay Lakhera (IC-51775) Arty—19 Dec 94.
Amit Kumar Chanda (IC-51729) Engrs—19 Dec 94	Sujit Kumar (IC-51776) Arty—19 Dec 94.
Atulya Singh Gautam (IC-51730) Inf—19 Dec 94.	Anoop Singh (IC-51777) Inf—19 Dec 94.
Sharad Srivastava (IC-51731) Sigs—19 Dec 94.	Sudhir Kumar Chaudhary (IC-51778) Arty—19 Dec 94.
Sumeet Baxi (IC-51732) Inf—19 Dec 94.	Rajendra Kumar Tiwari (IC-51779) Sigs—19 Dec 94.
Samir Rameshwar Kishore (IC-51733) Inf—19 Dec 94.	S Ashwin Naidu (IC-51783) Sigs—19 Dec 94.
Damle Milind Mahesh (IC-51734) Sigs—19 Dec 94.	Kundan Kumar Sinha (IC-51784) Inf—19 Dec 94.
Kuppili Raja Shekhar (IC-51735) Arty—19 Dec 94.	Shinde Hariha Ranoba (IC-51785) Arty—19 Dec 94.
Vikram Jaitley (IC-51736) Arty—19 Dec 94.	Ashish Tripathi (IC-51786) Inf—19 Dec 94.
Debasish Metia (IC-51737) Engrs—19 Dec 94.	Deepesh Joshi (IC-51787) AC—19 Dec 94.
J Vertichelvan (IC-51738) Inf—19 Dec 94.	Kulveer Singh Machal (IC-51789) Inf—19 Dec 94.
Anuj Chanan (IC-51740) Arty—19 Dec 94.	Latifur Rehman (IC-51791) Arty—19 Dec 94.
Anindya Auddy (IC-51741) Sigs—19 Dec 94.	Kulraj Singh Kajal (IC-51792) Inf—19 Dec 94.
Rishikesh Gupta (IC-51742) ASC—19 Dec 94.	Inder Singh (IC-51793) Engrs—19 Dec 94.
Thorat Ajay Uday (IC-51743) Mech—19 Dec 94.	Milan Mohan Math (IC-51794) Engrs—19 Dec 94.
Hardeep Singh (IC-51744) ASC—19 Dec 94.	Jiji Varghese (IC-51795) ASC—19 Dec 94.
Ajit Singh Yadav (IC-51745) Arty—19 Dec 94.	Rajbir Singh (IC-51796) Inf—19 Dec 94.
Iyer Sundarraj Mani (IC-51746) Sigs—19 Dec 94.	Harminder Singh Sandhu (IC-51797) Inf—19 Dec 94.
Amit Kumar (IC-51747) AOC—19 Dec 94.	Pankaj Naithani (IC-51798) AOC—19 Dec 94.
Sharad Pathak (IC-51748) EME—19 Dec 94.	Venkata Venumadhav P (IC-51799) Inf—19 Dec 94.
Abhinav Bharti (IC-51749) Engrs—19 Dec 94.	Karam Jit Singh (IC-51800) AOC—19 Dec 94.
Gurpal Singh (IC-51750) AC—19 Dec 94.	Jaswinder Singh Cheema (IC-51803) Arty—19 Dec 94.
Sanjiv Singh (IC-51751) Inf—19 Dec 94.	Parab Ravi Narayan (IC-51804) Arty—19 Dec 94.
Rajendra Sial (IC-51752) EME—19 Dec 94.	Satish Penghal (IC-51805) AOC—19 Dec 94.
Ravinder Singh Sethi (IC-51753) Arty—19 Dec 94.	Sahill Sharma (IC-51806) Arty—19 Dec 94.
Pavithran R (IC-51754) Inf—19 Dec 94.	Arjun Singh Parmar (IC-51807) Inf—19 Dec 94.
Rajan Agarwal (IC-51755) Inf—19 Dec 94.	Vinay Shahi (IC-51808) Inf—19 Dec 94.
Vishwa Bandhu (IC-51757) ASC—19 Dec 94.	Dipta Ranjan Ray (IC-51809) Arty—19 Dec 94.
Sandeep Negi (IC-51758) Inf—19 Dec 94 .	Gajanan Pandey (IC-51810) ASC—19 Dec 94.
Kulkarni Prafulla Meghanath (IC-51759) Int—19 Dec 94.	Jitendra Narayan Kumar (IC-51811) ASC—19 Dec 94.
Manoj Kumar Rawat (IC-51760) Engrs—19 Dec 94.	Atul Suri (IC-51812) AC—19 Dec 94.
Ramneek Kalra (IC-51761) Sigs—19 Dec 94.	Amit Purty (IC-51813) Inf—19 Dec 94.
Girish Kumar Mehta (IC-51762) Inf—19 Dec 94.	Maneesh Joshi (IC-51814) EME—19 Dec 94.
Parveen Kumar (IC-51763) Inf—19 Dec 94.	Ajay Singh Negi (IC-51815) ASC—19 Dec 94.
Digvijay Singh Sumal (IC-51764) Inf—19 Dec 94.	Kumar Prateek (IC-51816) Mech—19 Dec 94.
	Gangasani Chandra Sekhar (IC-51818) Arty—19 Dec 94.
	Chander Dev Kaushal (IC-51819) Engrs—19 Dec 94.

Ajay Kothiyal (IC-51821) Inf—19 Dec 94.
 Sunjoy S (IC-51824) Inf—19 Dec 94.
 Bakul Gosain (IC-51825) Inf—19 Dec 94.
 Amia Rai (IC-51826) AOC—19 Dec 94.
 Rakesh Kumar (IC-51827) ASC—19 Dec 94.
 S Prem Kumar (IC-51828) Arty—19 Dec 94.
 Samrat Mehta (IC-51829) Sigs—19 Dec 94.
 Ravi Srivastava (IC-51830) Arty—19 Dec 94.
 Anuj Dayal Mathur (IC-51832) Sigs—19 Dec 94.
 Ajit Singh (IC-51833) ASC—19 Dec 94.
 Paritosh Bhaumik (IC-51834) Arty—19 Dec 94.
 Kashikar Sarang Shreepad (IC-51835) Inf—19 Dec 94.
 Kartik Datt (IC-51836) Inf—19 Dec 94.
 Suresh Michael Raj (IC-51837) Arty—19 Dec 94.
 Vikas (IC-51838) Inf—19 Dec 94.
 Rajiv Rai (IC-51839) Arty—19 Dec 94.
 Sameer Balodi (IC-51840) Engrs—19 Dec 94.
 V Venkat Srinivas (IC-51841) Arty—19 Dec 94.
 Jasmail Singh Dhaliwal (IC-51842) AC—19 Dec 94.
 Vijay Prakash Dwivedi (IC-51843) Inf—19 Dec 94.
 Puneet Aggarwal (IC-51845) AOC—19 Dec 94.
 Prashant Kapte (IC-51846) Inf—19 Dec 94.
 Peter Celestine M (IC-51847) Inf—19 Dec 94.
 Vasudevan Narayanan (IC-51848) Inf—19 Dec 94.
 Surinder Singh (IC-51850) Inf—19 Dec 94.
 MN Narendranath (IC-51851) Inf—19 Dec 94.
 Kaustuv Banerjee (IC-51852) AOC—19 Dec 94.
 KT Gopala Krishnan (IC-51853) Inf—19 Dec 94.
 Vivek Bhatt (IC-51854) Inf—19 Dec 94.
 Vibhu Dikshit (IC-51855) Sigs—19 Dec 94.
 Varun Luthra (IC-51856) AC—19 Dec 94.
 Sudhir Kumar Pandey Shastry (IC-51857) Arty—19 Dec 94.
 Bhoraskar Sameer Vasant (IC-51858) Engrs—19 Dec 94.
 Govindan R (IC-51860) Arty—19 Dec 94.
 Rohit Sharma (IC-51861) Sigs—19 Dec 94.
 Murli Iyer (IC-51862) Sigs—19 Dec 94.
 Rajesh Bakshi (IC-51863) ASC—19 Dec 94.
 Manish Kumar Sharma (IC-51864) Engrs—19 Dec 94.
 Sandip Lamba (IC-51865) Engrs—19 Dec 94.
 Pradeep Singh Tanwar (IC-51866) Inf—19 Dec 94.
 Sanjay Sharma (IC-51867) Inf—19 Dec 94.
 Batra Sanjay (IC-51868) Arty—19 Dec 94.
 Shailender Singh (IC-51869) Inf—19 Dec 94.
 Krishna Mohan Rai (IC-51870) Mech—19 Dec 94.
 Kanwar Manmeet (IC-51873) ASC—19 Dec 94.
 Arijit Ray (IC-51874) Arty—19 Dec 94.

Lalit Mohan Sharma (IC-51875) Engrs—19 Dec 94.
 Vikas Singh (IC-51876) Inf—19 Dec 94.
 Baby Mathew (IC-51877) Inf—19 Dec 94.
 Arun Kant Tripathi (IC-51878) Arty—19 Dec 94.
 Devesh Sinha (IC-51880) Inf—19 Dec 94.
 R Anil Kumar (IC-51881) AOC—19 Dec 94.
 Deepak Sanghi (IC-51882) Arty—19 Dec 94.
 Kailash Nakthani (IC-51893) AEC—19 Dec 94.
 Mohan Chandra Joshi (IC-51894) AEC—19 Dec 94.
 Madan Mohan Kandwal (IC-51906) AEC—19 Dec 94.
 Badri Nath Rai (IC-51911) AEC—19 Dec 94.
 Priyadarshan Agrawal (IC-51914) AEC—19 Dec 94.

SHORT SERVICE COMMISSION

2/Lt to be Lt

Abhay Singh (SS-33299) Inf—05 Mar 90.
 Kanwar Jitendra Kumar Choudhary (SS-34271) ASC—26 Aug 91.
 Yadishthir Moza (SS-34485) Inf—09 Mar 1992.
 Ashok Bhatotia (SS-34539) AOC—25 Aug 92.
 Kaushik Nandy (SS-34731) Inf—25 Aug 1992.
 Jeetender Singh (SS-34827) Arty—09 Mar 1993.
 Vikas Kumar Rawat (SS-35029) AC—07 Mar 1994.
 S Bhagotra (SS-35036) Engrs—07 Mar 1994.
 Surendra Kumar Yadav (SS-35041) ASC—07 Mar 1994.
 Amit Anand Pandya (SS-35189) Arty—07 Mar 1994.

PERMANENT COMMISSION (SL)

2/Lt to be Lt

J S Multani (SL-3997) EME—13 Nov 94.

AK MALIK, CSO
DAMS 8C

No. 310, dated 31st March 1995.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

MILITARY NURSING SERVICE

(PERMANENT COMMISSION)

To be Captain

(Mrs) Alice George (NR-19023) 08-07-93.
 (Mrs) Usha Kumari S (NR-19024), 08-07-93.
 (Miss) Meena K. Sharma (NR-19025), 08-07-93.
 (Mrs) Devaki Devi K. M. (NR-19026), 08-07-93.
 (Mrs) Presanna C R (NR-19027), 08-07-93.
 (Mrs) Sreedeviamma KG (NR-19030), 08-07-93.

(Mrs) Manjula KS (NR-19031), 08-07-93.
 (Miss) Anup Kumari (NR-19032), 08-07-93.
 (Miss) Sarasamma P (NR-19034), 08-07-93.
 (Miss) V Subhalakshmi (NR-19035), 08-07-93.
 (Mrs) Usha Ashok (NR-19036), 08-07-93.
 (Mrs) KM Selija (NR-19037), 08-07-93.
 (Mrs) Parveen (NR-19038), 08-07-93.
 (Mrs) Anita (NR-19039), 08-07-93.
 (Mrs) V Younes (NR-19040), 08-07-93.
 (Mrs) Shaswati Rudra (NR-19041), 08-07-93.
 (Mrs) Raj Dulari (NR-19042), 08-07-93.
 (Mrs) Geeta Singh (NR-19043), 08-07-93.
 (Mrs) Padma Rani Kataria (NR-19044), 08-07-93.
 (Mrs) Mala Singh (NR-19045), 08-07-93.
 (Mrs) Pushpa Kanta S (NR-19049), 08-07-93.
 (Miss) Algen David (NR-19050), 08-07-93.
 (Mrs) Vijay Laxami M (NR-19051), 11-07-93.
 (Miss) J Bandhopadhyay (NR-19052), 30-08-93.
 (Miss) S. Geetha Rao (NR-19053), 30-08-93.
 (Mrs) G. S. Catherine (NR-19054), 30-08-93.
 (Miss) Latha V (NR-19055), 30-08-93.
 (Mrs) Jasbir Kaur (NR-19056), 30-08-93.
 (Miss) Sushma Rani (NR-19057), 30-08-93.
 (Miss) Padma Kumari Mandadi (NR-19058), 30-08-93.
 (Mrs) Lucky Bhardwaj (NR-19059), 30-08-93.
 (Mrs) Lissy Joseph K (NR-19060), 30-08-93.
 (Mrs) Falguni Paul (NR-19061), 30-08-93.
 (Miss) Shankari Paul (NR-19062), 30-08-93.
 (Miss) Renuka Rani S (NR-19063), 30-08-93.
 (Mrs) Asha Sharma (NR-19064), 30-08-93.
 (Mrs) Chaudhary A. K. (NR-19065), 30-08-93.
 (Mrs) Papan Sali (NR-19066), 30-08-93.
 (Mrs) GVS Kumari (NR-19068), 30-08-93.
 (Miss) Seema Sharma (NR-19069), 30-08-93.
 (Miss) C. Bandopadhyay (NR-19071), 30-08-93.
 (Mrs) Vimala T. J. (NR-19072), 30-08-93.
 (Miss) D Kaur Baber (NR-19073), 30-08-93.
 (Miss) KK Banerjee (NR-19074), 30-08-93.
 (Mrs) Nilima Kayal (NR-19075), 30-08-93.
 (Miss) Dipa Sarkar (NR-19076), 30-08-93.
 (Mrs) Swarnamoyee Koley (NR-19077), 30-08-93.
 (Miss) A Paranteshwari (NR-19078), 30-08-93.
 (Miss) Nirmal Rani (NR-19079), 30-08-93.
 (Miss) Mary Salvi K (NR-19081), 30-08-93.

S. S. SARASWATHI,
 Maj Gen
 Addl DG MVS

No. 311, dated 7th April 1995.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

INFANTRY

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

To be Naib Subedar (Clerks)

Hav (Clk) Ranbir Singh (No. 3169266P now JC-418327P), 08th Sep 1994.*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Aug 94 without effect on pay and allowances).

To be Naib Subedar

Hav Mahender Singh (No. 4164055Y now JC-418328X), 31st Aug 1994.*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 03rd Jul 94 without effect on pay and allowances).

Hav Hayat Singh (No. 4167384A now JC-418329A), 06th Sep 1994."

“(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 03rd Jul 1994 without effect on pay and allowances).

Hav Udai Singh (No. 2870428X now JC-418330P), 06th Jan 1995.%

%(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 13th Mar 1994 without effect on pay and allowances).

Hav Arjun Singh (No. 2870441F now JC-418331X), 06th Jan 1995.@

@(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 25th Apr 1994 without effect on pay and allowances).

Hav Harbir Singh (No. 14901357P now JC-418332A), 05th Nov 1994.£

£(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 13th May 1994 without effect on pay and allowances).

Hav Mahesh Lal (No. 13746681Y now JC-418333H), 29th Sep 1994.&

&(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 16th May 1994 without effect on pay and allowances).

Hav Sukh Pal Singh (No. 3169280F now JC-418334L), 17th Sep 1994.\$

\$(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 21st May 1994 without effect on pay and allowances).

Hav Ghatage Narayan Bhimarao (No. 14900045M now JC-418335N), 02nd Sep 1994.*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Jun 1994 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Prakash (No. 4170823L now JC-418336W), 05th Nov 1994."

“(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 02nd Jun 1994 without effect on pay and allowances).

Hav Naib Singh (No. 14901412A now JC-418337Y), 06th Jan 1995.%

%(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 04th Jun 1994 without effect on pay and allowances).

Hav Madan Lal (No. 14901844P now JC-418338F), 06th Jan 1995. @

@(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 04th Jun 1994 without effect on pay and allowances).

Hav Sukhdev Singh (No. 2672403A now JC-418339K), 08th Nov 1994. £

£(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Jul 1994 without effect on pay and allowances).

Hav Dileep Singh (No. 2870704P now JC-418340Y), 06th Jan 1995. &

&(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Jul 1994 without effect on pay and allowances).

Hav Kishon Bahadur Chetri (No. 4546794W now JC-418341F), 03rd Oct 1994. *

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Aug 1994 without effect on pay and allowances).

Hav Pranvir Singh Rawat (No. 4547008Y now JC-418342K), 10th Jan 1995. "

"(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Aug 1994 without effect on pay and allowances).

Hav Dhup Singh (No. 2973367L now JC-418343M), 24th Aug 1994. %

%(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 02nd Aug 1994 without effect on pay and allowances).

Hav Vijay Singh (No. 2870828K now JC-418344P), 06th Jan 1995. @

@(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 02nd Aug 1994 without effect on pay and allowances).

Hav Rajender Singh (No. 3167054L now JC-418345X), 22nd Dec 1994. £

£(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 20th Aug 1994 without effect on pay and allowances).

Hav Jagdish Prasad (No. 3168429L now JC-418346A), 22nd Dec 1994. &

&(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 20th Aug 1994 without effect on pay and allowances).

Hav Mahabir (No. 3167217N now JC-418347H), 22nd Dec 1994. *

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 20th Aug 1994 without effect on pay and allowances).

Hav Kunwar Singh (No. 4547186F now JC-418348L), 03rd Jan 1995. %

%(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 30th Aug 1994 without effect on pay and allowances).

(ARMOURD CORPS)

To be Nb Ris

Dfr Kishori Lal (No. 1050707H now JC-236206M), 01 May 94.

SQMD Abhilash Singh (No. 1051764X now JC-236207P), 13 May 94. *

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris w.e.f. 10 May 94 without effect on pay and allowances).

Dfr Sawai Singh (No. 1055532W now JC-236208X), 20 May 94. *

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris w.e.f. 01 Jan 94 without effect on pay and allowances).

Dfr Mukhtiar Singh (No. 1055600Y now JC-236209A), 04 Apr 94. *

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris w.e.f. 01 Mar 94 without effect on pay and allowances).

Dfr Satbir Singh (No. 1055637A now JC-236210P), 08 Mar 94. *

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris w.e.f. 01 Mar 94 without effect on pay and allowances).

Dfr Ajaib Singh (No. 1055703K now JC-236211X), 30 Apr 94. *

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris w.e.f. 01 Mar 94 without effect on pay and allowances).

Dfr Sheo Rattan Singh (No. 1053307H now JC-236212A), 01 Mar 94.

Dfr Salunkhe Pandurang Bapu (No. 1053311L now JC-236213H), 20 Apr 94. *

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris w.e.f. 01 Mar 94 without effect on pay and allowances).

Dfr Girdhari Lal Dhabai (No. 1053371A now JC-236214L), 01 Mar 94.

Dfr Jagmal Singh (No. 1053518A now JC-236215N), 01 Mar 94.

Dfr Mukhtiar Singh (No. 1052475P now JC-236216W), 01 Apr 94.

Dfr Ram Singh Gurjar (No. 1053615H now JC-236217Y), 01 Apr 94.

Dfr Chatter Singh (No. 1055548F now JC-236218F), 01 Jan 94.

Dfr Raghubar Singh Dhankare (No. 1056100N now JC-236219K), 06 Feb 94.

Dfr Ajit Singh (No. 1054574W now JC-236220Y), 20 Feb 94.

Dfr Girdhari Lal (No. 1055514N now JC-236222A), 15 Mar 94.

Dfr Anurudh Singh (No. 1052264M now JC-236223M), 01 Apr 94.

Dfr Jai Ram Singh (No. 1052255L now JC-236225P), 17 Apr 94.

RDM Hari Ram (No. 1050082A now JC-236226F), 18 Apr 94.

Dfr Ram Lakhan (No. 14320050F now JC-236227K), 01 Jun 94. *

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris w.e.f. 01 Feb 94 without effect on pay and allowances).

SDM Bachitter Singh (No. 1052538M now JC-236235F), 01 Apr 94.

Dfr Hanuman Sahay (No. 1052463A now JC-236236K), 01 Apr 94.

Dfr Chitrapal Singh (No. 1055040X now JC-236237M), 14 Apr 94.

Dfr Sheo Kumar Singh (No. 1052208K now JC-236238F), 01 May 94.

Dfr Kashmir Singh (No. 1056108A now JC-236239X), 13 May 94.

Dfr Sarjeet Singh (No. 1056234M now JC-236240M),
01 Jun 94.

Dfr Amarjit Singh (No. 1056277F now JC-236241P),
01 Jun 94.

Dfr Ranvir Singh (No. 1050995F now JC-236243A),
01 Jun 94.

SDM Sewa Singh (No. 1055029Y now JC-236244H),
12 Jun 94.

RDM Baljinder Singh (No. 1055955K now JC-236245K),
17 Jun 94.

Dfr Hussain Khan (No. 1046826H now JC-236246N), 01
Jul 94.

Dfr Pali Ram Lohan (No. 1054684L now JC-236247W),
01 Jan 94.

Dfr Satbir Singh Redhu (No. 1053811H now JC-236248
Y), 01 Jan 94.

Dfr Mahabir Singh (No. 1053822P now JC-236253K), 01
Jan 94.

Dfr Bhopinder Singh (No. 1054372P now JC-236254M),
16 Feb 94.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 94
without effect on pay and allowances).

RDM Inderjit Singh (No. 1053931F now JC-236255P),
01 Jan 94.

Dfr Pritam Singh (No. 1054373H now JC-236256X), 01
Feb 94.

Dfr Tara Chand (No. 1053918X now JC-236257A), 01
Feb 94.

Dfr Sahadevan T (No. 1058340K now JC-236258H), 02
Feb 94.*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb 94
without effect on pay and allowances).

Dfr Jai Singh Rathore (No. 1054060Y now JC-236259I),
25 Feb 94.

Dfr Bajrang Singh Shekhawat (No. 1052762N now JC-
236260F), 01 Mar 94.

Dfr Darshan Singh Saini (No. 1051244N now JC-236261
K), 01 Apr 94.

Dfr Sumer Singh (No. 1055528N now JC-236262M), 01
Apr 94.

Dfr Sukhminder Singh (No. 1052395X now JC-236263P),
01 Apr 94.

SDM Shaikh Ahmad Basha (No. 1055329A now JC-
236364X), 21 Apr 94.

RDM Ramesh Chandra (No. 1053846Y now JC-236265A),
24 Apr 94.

Dfr Beas Dev (No. 1052515L now JC-236267L), 22 May
94.

SDM Viswanathan C (No. 1055377A now JC-236268N),
01 Jun 94.

SDM Dorai Swamy S (No. 1055389P now JC-236269W),
01 Jun 94.

Dfr Shromani Singh (No. 1058408A now JC-236270K),
01 Jun 94.

THE PRESIDENT'S BODYGUARD

To be Nb Ris (GD)

Dfr Prithi Singh (No. 13700280L now JC-2350010M), 15
Feb 1995.

R. G. HEGDE,
Under Secy.

No. 312, dated 6th April 1995.—The President is pleased
to make the following promotions :—

(REGULAR ARMY)

REGIMENT OF ARTILLERY

To be Substantive Subedar Major (GD)

Subedar Angamuthu Gopal (JC-129836P), 1st Oct 1994.

To be Substantive Subedar Major (AIG)

Subedar Suraj Bhan (JC-106657H), 1st Oct 1994.

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Sohan Lal (JC-179221A), 1st July 1994.

Nb Sub Roshan Lal (JC-178933W), 1st Oct 1994.

To be Substantive Subedar (AIG)

Nb Sub Dilbag Singh (JC-209374F), 1st Oct 1994.

Nb Sub Gian Singh (JC-215370F), 1st Nov 1994.

To be Substantive Subedar (TIFC)

Nb Sub Kishori Lal (JC-185939A), 1st Sep 1994.

Nb Sub Nand Kishore Yadava (JC-175586X), 1st Sep
1994.

PRAKASH CHAND,
Under Secy.

ARMY BRANCH

(QMG's BRANCH)

No. 313, dated 31st March 1995.—On attaining the age
of superannuation i.e. 58 years on 09-03-1995 (Date of Birth
being 09-03-1937), Shri V Sambandam, ACSO, QMG Branch
retired from service w.e.f. 31-3-1995 (A/N) and transfer-
red to Pension Establishment w.e.f. 01-04-1995 (F/N).

RENU K. RAJU,
Dy. Chief Administrative Officer

CORRIGENDUM

No. 314, dated 7th April 1995.—In Ministry of Defence
Notification No. 944 dated 13 Oct 94, published in Gazette
of India Ser. No. 46 dated 12 Nov 94 under the heading
'REGULAR ARMY' sub heading 'REGIMENT OF ARTIL-
LERY'.

For—Hav Rajeendran KK (14452472P now JC-256447
N), 01 Jul 93.

Read—Hav Rajeendran KK (14452472P now JC-
256447N), 29 Oct 93.*

*(Granted seniority wef 15 Jul 93 without effect on
pay and allces).

For—Hav Harpal Singh (14316129M now JC-256454 K), 29 Oct 93.*

*(Granted seniority wef 15 Jul 93 without effect on pay and allces).

Read—Hav Harpal Singh (14316129M now JC-256454 K), 03 Dec 93.*

*(Granted seniority wef 01 Aug 93 without effect on pay and allces).

Hav Harbans Singh (13809296M now JC-256445 H), 01 Jul 93.

PRAKASH CHAND,
Under Secy.

CORRIGENDA

No. 315, dated 7th April 1995.—In Ministry of Defence Notification number 1072 dated 24th November 1994 published in the Gazette of India Serial number 52 dated 24th December 1994 under heading 'Regular Army' sub heading 'Infantry' 'The Mechanised Infantry Regiment' below :—

To be Naib Subedar

For—Hav Amar Chand (No. 3977201X now JC-418319 W), 23rd Jan 1994.*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Feb 1994 without effect on pay and allowances).

Read—Hav Amar Chand (No. 3977201X now JC-418319W), 23rd Jun 1994.*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Feb 1994 without effect on pay and allowances).

In Ministry of Defence Notification number 1058 dated 17th November 1994 published in the Gazette of India Serial number 51 dated 17th December 1994 under heading 'Regular Army' sub heading 'Infantry' 'The Mechanised Infantry Regiment' below :—

To be Substantive Subedar

For—Nb Sub Ghan Bahadur Gurung (JC-175862X), 01st Oct 1993.

Read—Nb Sub Ghan Bahadur Gurung (JC-175862X), 01st Oct 1993.

R. G. HEGDE,
Under Secy.